



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 48 ] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29, 1980 (अग्रहायण 8, 1902)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29, 1980 (AGRAHAYANA 8, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation]

### भाग—I खण्ड 4

#### PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the  
Ministry of Defence]

#### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1980

सं० 2434, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक, श्री जे० पी० रस्तोगी को 22-10-1980 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए तदर्थ आधार पर वरिष्ठ विश्लेषक नियुक्त करते हैं ।

सं० 2435, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के निम्नलिखित अस्थायी चयन सूची अधिकारियों को उक्त ग्रेड में उनके प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	सहायक/आशुलिपिक ग्रेड "ग" के रूप में जिस संवर्ग से संबंधित है ।	अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थायीकरण की तारीख
----------	-----	--	---

1	2	3	4
1.	श्री जी० एल० सूद	गृह मंत्रालय (सहायक)	1-5-1980

1	2	3	4
2.	श्री देसराज शर्मा	रक्षा मंत्रालय (II) (ग्रेड "ग" आशुलिपिक)	1-5-1980
3.	श्री जे० एस० जोशी	रक्षा मंत्रालय (सहायक)	1-8-1980
4.	श्री पुन्नूराम	कृषि मंत्रालय (सहायक)	1-9-1980
5.	श्री एन० सी० सल्होला	रक्षा मंत्रालय (ग्रेड "ग" आशुलिपिक)	1-10-1980

सं० 2436, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980—अवकाश ग्रहण की आयु प्राप्त होने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रपति 31 अक्टूबर, 1980 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

1. श्री एस० के० कोल, स्थायी अनुभाग अधिकारी और स्थानापन्न डेस्क अधिकारी ।

2. श्री एस० एल० शर्मा, स्थायी सहायक/अस्थायी अनुभाग अधिकारी ।

वी० लक्ष्मी, अवसर सचिव

## रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 2437, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980—निम्नलिखित अधिकारी स्वेच्छा से दी गई तिथि से दी सेवा-निवृत्त हुआ।

## रक्षा गुणवत्ता समाशवासन सेवा

श्री एल० एच० शा, अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I (स्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II) निरीक्षण नियंत्रणालय (गोला बारूद) किरक्री 3 मई 1980 (अपराह्न)

सं० 2438, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980—निम्नलिखित अधिकारी काम से मुक्त होने की आयु के पश्चात् दी गई तिथि से सेवा-निवृत्त हुआ :—

## (निरीक्षण महानिदेशालय संगठन)

श्री एस० जे० देसाई, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (स्थायी फोरमैन) निरीक्षण नियंत्रणालय (गोला बारूद) किरक्री—31 मार्च 1980 (अपराह्न)।

आई० के० सहगल, उप निदेशक (कार्मिक)

## राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० 2439, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों का 20 मई 1980 से राष्ट्रीय कैडेट कोर से त्याग पत्र स्वीकार करते हैं। उनके नामों के सामने कोष्ठकों में दी गई अवधि वरिष्ठता या पदोन्नति अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर में अन्य किन्हीं लाभों के लिए नहीं गिनी जाएगी :—

## कनिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

## आन्ध्र प्रदेश

प्रथम अफसर जी० एन० राव (एन० सी० सी० जे०/41431)—24 जुलाई 1979 से 19 मई 1980।

द्वितीय अफसर आर० पुल्लैया (एन० सी० सी० जे०/41310)—1 अगस्त 1979 से 19 मई 1980।

## दिल्ली

द्वितीय अफसर बी० पी० सारस्वत (एन० सी० सी० जे०/6369)—5 नवम्बर, 1979 से 19 मई 1980।

## गुजरात

द्वितीय अफसर आर० के० सोरठिया (एन० सी० सी० जे०/35505)—1 मई 1980 से 19 मई 1980।

## केरल

द्वितीय अफसर बी० मोहनन (एन० सी० सी० जे०/25592)—1 अप्रैल 1979 से 19 मई 1980।

प्रथम अफसर एस० एन० पिल्लै (एन० सी० सी० जे०/25354)—1 नवम्बर 1979 से 19 मई 1980।

द्वितीय अफसर बी० शशीधरन (एन० सी० सी० जे०/25661)—1 दिसम्बर 1979 से 19 मई 1980।

## मध्य प्रदेश

द्वितीय अफसर बी० बी० सिंह (एन० सी० सी० जे०/5780)—20 जुलाई 1979 से 19 मई, 1980।

द्वितीय अफसर बी० पी० बघेले (एन० सी० सी० जे०/5956)—16 फरवरी 1980 से 19 मई 1980।

## महाराष्ट्र

प्रथम अफसर एस० पी० धनिरवार (एन० सी० सी० जे०/81091)—16 अक्टूबर 1979 से 19 मई 1980।

## पंजाब

द्वितीय अफसर सेवा सिंह (एन० सी० सी० जे०/8554)—25 जुलाई 1979 से 19 मई 1980।

## उत्तर प्रदेश

द्वितीय अफसर एस० एन० द्विवेदी (एन० सी० सी० जे०/13347)—1 मई 1979 से 19 मई 1980।

तृतीय अफसर एस० पी० एस० आनन्द (एन० सी० सी० जे०/13604)—18 दिसम्बर 1979 से 19 मई 1980।

## कनिष्ठ प्रभाग (नौसेना स्कंध)

## गुजरात

द्वितीय अफसर आर० बी० पटेल (एन० सी० सी० जे०/35424)—1 अप्रैल 1979 से 19 मई 1980।

प्रथम अफसर आर० के० पटेल (एन० सी० सी० जे०/35317)—1 अप्रैल 1980 से 19 मई, 1980।

## पंजाब

द्वितीय अफसर आर० एस० मेहता (एन० सी० सी० जे०/8125)—1 फरवरी 1979 से 19 मई, 1980।

सं० 2440, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से राष्ट्रीय कैडेट कोर से सेवा मुक्त करते हैं :—

## कनिष्ठ प्रभाग (थल सेना स्कंध)

## आन्ध्र प्रदेश

मुख्य अफसर टी० बी० जेम्स (एन० सी० सी० जे०/9315)—31 दिसम्बर, 1977।

## महाराष्ट्र

प्रथम अफसर डी० डी० गूजर (एन० सी० सी० जे०/81436)—16 मार्च, 1979।

मुख्य अफसर ए० क्यू० सानी (एन० सी० सी० जे०/81029)—1 अप्रैल, 1980।

द्वितीय अफसर एन० बी० डिग्राजकर (एन० सी० सी० जे०/81546)—1 अप्रैल, 1980।

प्रथम अफसर टी० बी० खाड्पकर (एन० सी० सी० जे०/81584)—27 अगस्त, 1980 ।

पंजाब

प्रथम अफसर दिलबाग राय (एन० सी० सी० जे०/8098)—31 अक्टूबर, 1979 ।

तमिलनाडु

मुख्य अफसर एस० मोहन (एन० सी० सी० जे०/51113)—6 जून, 1980 ।

प्रथम अफसर के० आर० सुब्रमण्यन (एन० सी० सी० जे०/51552)—6 जुलाई, 1980 ।

उत्तर प्रदेश

मुख्य अफसर जे० पी० चोला (एन० सी० सी० जे०/12229)—28 जुलाई, 1980 ।

प्रथम अफसर एन० एस० राठोर (एन० सी० सी० जे०/13181)—27 अगस्त, 1980 ।

पश्चिम बंगाल

प्रथम अफसर पी० सी० चन्द्रा (एन० सी० सी० जे०/14612)—1 अगस्त, 1979 ।

प्रथम अफसर बी० एन० चटर्जी (एन० सी० सी० जे०/14628)—27 अगस्त, 1979 ।

कनिष्ठ प्रभाग (नौसेना स्कंध)

पंजाब

प्रथम अफसर गुरुदेव सिंह (एन० सी० सी० जे० एन०/7747)—3 दिसम्बर, 1979 ।

कनिष्ठ प्रभाग (वायु सेना स्कंध)

दिल्ली

मुख्य अफसर आर० एम० भार्गव (एन० सी० सी० जे० ए०/6075)—22 अगस्त, 1979 ।

मुख्य अफसर आर० के० माथुर (एन० सी० सी० जे० ए०/6392)—तथा द्वितीय अफसर बी० एस० रतन (एन० सी० सी० जे० ए०/7837)—27 अगस्त, 1979 ।

कर्नाटक

द्वितीय अफसर ए० के० बेंकटरमनप्पा (एन० सी० सी० जे० ए०/23152)—27 अगस्त, 1979 तथा द्वितीय अफसर के० इमाम (एन० सी० सी० जे० ए०/23402)—3 फरवरी, 1980 ।

बी० के० मूर्ति, कार्मिक निदेशक

(रक्षा सेवा स्टाफ कालिज)

सं० 2441, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति ने श्री शाम सुन्दर नरंग को स्थायी आधार पर नागरिक अधिकारी (लेखा) वर्ग-ए के पद पर 12 अक्टूबर 1978 से नियुक्त किया है ।

अवर सचिव

(राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून)

सं० 2442, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति महोदय, श्री सी० ए० जोसफ को, दो वर्ष की परखावधि पर, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून में अस्थायी अध्यापक के पद पर, 8 सितम्बर 1980 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं ।

ऊमा कान्त मिश्रा,  
अवर सचिव

सं० 2443, दिनांक 29 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्ति समाप्त करते हैं :—

विदेशी भाषा विद्यालय

जर्मन भाषा की प्रवक्ता (तदर्थ) श्रीमती मेधा पटवर्धन ने 1-10-1980 (पूर्वाह्न) से कार्यभार त्याग दिया ।

डी० आर० सोनी,  
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

निरीक्षण महा निदेशालय

सं० 2444, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980—8 अक्टूबर, 1980 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर, श्री युधिष्ठिर, स्थायी, ए० सी० एस० ओ०, अस्थायी सी० एस० ओ०, 31-10-80 (अपराह्न) से सेवा-निवृत्त हुए तथा 1-11-1980 से पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए गए ।

बी० पी० जोशी,  
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

(जी० एस० शाखा)

सं० 2445, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति स्थायी सहायक श्री वासदेव सोनी को, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में, 3 अक्टूबर 1980 से अगले आदेश जारी होने तक, स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

(ए० जी० शाखा)

सं० 2446, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति स्थायी सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री प्रताप सिंह को श्री डी० एम० जैन के सेवा-निवृत्त होने पर उनके स्थान पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में 8-10-1980 (मध्याह्न) से अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नत करते हैं ।

सं० 2447, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं।

सेना मुख्यालय

(ई० एन० सी० शाखा)

श्री एम० एल० जैन, स्थायी सी० एस० ओ० नौसेना मुख्यालय को एम० सी० एस० ओ० के पद पर ए० एफ० एच० क्यू० सिविल सर्विस में दिनांक 22 अक्टूबर 1980 से आगामी आदेश तक श्री गुरबख्श सिंह एस० सी० एम० ओ० के स्थान पर जो कि सेवा निवृत्त हो गए हैं।

श्री आई० सी० सेठ स्थायी ए० सी० एस० ओ० को स्थानीय आधार पर 31-3-1980 से 15 मई, 1980 तक श्री ई० परमेश्वरम, एस० ओ० के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

डी० आर० सोनी, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

(ई० एन० सी० शाखा)

सं० 2448, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—श्री के० एम० एल० वर्मा, स्थायी सहायक स्थानापन्न ए० सी० एस० ओ० 5 अक्टूबर 1980 को 58 वर्ष की आयु के होने पर 31 अक्टूबर 1980 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए और 1 नवम्बर, 1980 से पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित कर दिए गए।  
गुरबख्श सिंह, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी।

सं० 2449, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—निवृत्ति की आयु 11 अक्टूबर, 1980 को प्राप्त करने पर श्री एस० सी० जैन, मुख्य कम्पाईलेशन अधिकारी, संयुक्त बीजलेख ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए और 1 नवम्बर, 1980 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना पर स्थानान्तरण हो गए।

सं० 2450, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—सेवा निवृत्ति की आयु 9 अक्टूबर, 1980 को प्राप्त करने पर श्री रघुवीर कृष्ण, सी० एस० ओ०, एम० जी० ओ० शाखा/ओ० एस० निदेशालय, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए और 1 नवम्बर 1980 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना पर स्थानान्तरण हो गए।

सं० 2451, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—सेवा निवृत्ति की आयु 15 अक्टूबर, 1980 को प्राप्त करने पर श्री पी० जैन, सी० एस० ओ०, एम० जी० ओ० शाखा/ओ० एस० निदेशालय, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए और 1 नवम्बर, 1980 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना पर स्थानान्तरण हो गए।

सं० 2452, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—सेवा निवृत्ति की आयु 3 अक्टूबर 1980 को प्राप्त करने पर श्री बी० एन० शर्मा, ए० सी० एस० ओ०, एम० जी० ओ० शाखा ओ० एस०

निदेशालय, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गये और 1 नवम्बर, 1980, (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना पर स्थानान्तरण हो गये।

डी० आर० सोनी

डी० आर० सोनी, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 2453, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

(नियमित सेना)

(स्थायी कमीशन)

कैप्टन के रैंक में (परख पर)

सुनन्दा मजुमदार, एम० बी० बी० एस०, (एम० आर-03730 डब्ल्यू०), सैनिक डाक्टरी कोर, 11 मार्च, 1977 बेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 सितम्बर 1976 से मानी जाएगी (इसमें हस्पताल नियुक्ति के लिए 6 महीने पूर्व से दी गई पूर्व ज्येष्ठता शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

(भारत के राजपत्र दिनांक 3 जून, 1978 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1100 दिनांक 24 अप्रैल, 1978 को जहाँ तक उसका संबंध उपरोक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

सं० 2454, दिनांक 27 सितम्बर, 1980—थलसेना अनुदेश 14/79 द्वारा यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

(मिस्र) शकुन्तला यू० लवासा एम० बी० बी० एस०, एम० डी० (पेड०) (एम० एस०-10493 एच०) ए० एम० सी०—8 मई, 1978।

बेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 8 मई, 1976 से दी जाएगी (स्नातकोत्तर योग्यता एम० डी० (पेड०) के लिए 2 वर्ष पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

(19 जनवरी, 1980 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 162 दिनांक 30 नवम्बर 1979 को, जहाँ तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है)।

सं० 2455, दिनांक 1 अक्तूबर, 1980—थल सेना अनुदेश 14/79 द्वारा यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

## नियमित सेना

## अल्पकालीन कमीशन

अर्ध-स्थायी मेजर के रैंक पर (परख पर)

(मिसेज) अहिल्या अरोरा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस -10644 एन०) ए० एम० सी०, 27 मई, 1980 (ज्येष्ठता 16 फरवरी 1979 से दी जाएगी तथा वेतन और भत्ता के लिए भी गिनी जाएगी)।

कैप्टन के रैंक पर (परख पर)

अशोक गोपीनाथ, एम० बी० बी० एस० (एम० एस-10649-एम०), ए० एम० सी०—5 जून, 1980।

चन्द्रा शेखर पांडा, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-10650-फ०), एफ० एम० सी०—9 जून, 1980।

शरत जोहरी, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-10648-के०), ए० एम० सी०—13 मई, 1980।

लेफ्टिनेंट फ्लाईंग अफसर के रैंक पर (परख पर)

(मिस) गीता नरसिमहन, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०-10646-वाई०) (16017), ए० एम० सी०—3 मार्च, 1980।

सं० 2456, दिनांक 30 अक्तूबर, 1980—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 20618/डी०/जी०/ए० एफ० एम० एस०/एम० एन० एम०/5545/डी० (मेडिकल) दिनांक 25 सितम्बर, 1969 और थल सेना अनुदेश 61/77 के अधीन निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

## नियमित सेना

## मिलिट्री नर्सिंग सेवा

(लेफ्टिनेंट के रूप में)

कुमारी ओ० एम० अन्नम्मा (एन० आर० 16329), कुमारी सुमीत्रा चक्रवर्ती (एन० आर० 16341), कुमारी डी० उषाया कुमारी (एन० आर०-16343), कुमारी टी० पी० थरेसीयाम्मा (एन० आर०-16346), कुमारी लॉइसे दाहल (एन० आर०-16354), कुमारी के० ए० थरेसीथाकुट्टी (एन० आर०-16367), कुमारी बी० सरोज (एन० आर०-16386), कुमारी बी० जोशी (एन० आर०-16397), कुमारी एम० बी० कुनजुनजाम्मा (एन० आर०-16431), कुमारी जे० लालीथा मेरी (एन० आर०-16433)—31 दिसम्बर, 1977।

टी० बी० समतानी, अवसर सचिव

सं० 2457, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की नियुक्ति करते हैं :—

## प्रादेशिक सेना

## “प्रादेशिक कमीशन”

2/लेफ्टि० (परख पर)

शकील अहमद, टी० ए० 41621, इंजीनियर्स—17 अप्रैल, 1979।

एम० एल० कपूर, अवसर सचिव

सं० 2458, दिनांक 30 अक्तूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

## नियमित सेना

## विशेष सूची

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

लीलाधर पांडे (जे० सी० 98743-डब्ल्यू०)—9 अक्तूबर 1979।

## राजपूताना राइफल

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

पुनरु दत्ता (जे० सी०-98744 वाई०)—27 दिसम्बर, 1979।

एस० कृष्णन्, अवसर सचिव

(नियमित सेना—ए० ओ० सी०)

सं० 2459, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अस्थायी कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-I (स्थायी कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-II) को स्थानापन्न आयुक्त अधिकारी असेनिक (प्रशासन) के रूप में तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने लिखित तिथि से नियुक्त करते हैं :—

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. श्री वीरस्वामी मद्दूगई गोपाल | 18-7-80<br>(पूर्वाह्न) |
| 2. श्री कोदन्डापानी मोहनन       | 19-7-80<br>(पूर्वाह्न) |
| 3. श्री सी० व्ही० जयरमन         | 11-9-80<br>(पूर्वाह्न) |
| 4. श्री राजपाल बिज              | 14-8-80<br>(पूर्वाह्न) |
| 5. श्री सोम क्रिस्तान           | 29-8-80<br>(पूर्वाह्न) |
| 6. श्री पी० टी० जगन्नाथाचारी    | 18-7-80<br>(पूर्वाह्न) |
| 7. श्री जोसेफ परेरा             | 22-7-80<br>(पूर्वाह्न) |

8. श्री व्यंकटेश सदाशिव कुलकर्णी	24-7-80 (पूर्वाह्न)
9. श्री शिवदयाल मेहता	28-8-80 (पूर्वाह्न)
10. श्री देवेन्द्र सिंह	18-7-80 (पूर्वाह्न)
11. श्री जुगल किशोर	17-7-80 (पूर्वाह्न)
12. श्री सतपाल भल्ला	18-7-80 (पूर्वाह्न)
13. श्री चन्द्र भान पाठक	9-9-80 (पूर्वाह्न)
14. श्री के० पुरुषोत्तम	21-7-80 (पूर्वाह्न)
15. श्री अनन्त शंकर गोडबोले	25-7-1980 (पूर्वाह्न)
16. श्री भोला नाथ बेरी	29-8-1980 (पूर्वाह्न)
17. श्री हरबंस सिंह	25-7-1980 (पूर्वाह्न)
18. श्री अर्जुन देव मल्होत्रा	19-7-1980 (पूर्वाह्न)
19. श्री कनछेदी लाल	22-7-1980 (पूर्वाह्न)
20. श्री ओ० एस० नरसिम्हन	4-9-1980 (पूर्वाह्न)
21. श्री भीम सेन गुप्ता	21-7-1980 (पूर्वाह्न)

सं० 2460, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित वरिष्ठ भंडार अधीक्षकों को उनके नाम के सामने लिखित तिथि स्थानापन्न अधिकारी असैनिक (भंडार) के रूप में तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एम० मोसिस—10 सितम्बर 80 (पूर्वाह्न)
2. श्री सोमनाथ जयशंकर भट्ट—10 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
3. श्री रमनिकलाल बल्लभजी ठाकर—8 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
4. श्री संदियोगो ऐन्दुकाया फ्रान्सिस—10 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
5. श्री नलिनीकान्त भितरा—8 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
6. श्री नन्दलाल—21 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
7. श्री तालतम रामास्वामी—10 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
8. श्री ईश्वर लाल—16 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
9. श्री चार्ली स्टेनीस्लेस फर्नान्डीस—8 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
10. श्री हरबंस लाल आनन्द—30 सितम्बर 80 (पूर्वाह्न)
11. श्री के० रंगनाथन—4 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)

12. श्री चीनासामी कृष्णावेलु—10 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
13. श्री जार्ज एडवर्ड लारेन्स 08 जुलाई 1980 (पूर्वाह्न)
14. श्री कृष्ण बलदेव अजमाने—3 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)
15. श्री एम० एस० चड्ढा—5 जुलाई 80 (पूर्वाह्न)

ई० एम० ई० कोर

सं० 2461, दिनांक 4 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति श्री अक्षयवर सिंह को अस्थाई वर्कशाप आफिसर ग्रुप 'ए' के रूप में ई० एम० ई० कोर में अगले हुकम तक तिथि 7 जुलाई 1980 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

सं० 2462, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति श्री डी० एन० झावरी, फोरमैन को अगले आदेश तक तिथि 11 अप्रैल 1980 (पूर्वाह्न) से अस्थाई वर्कशाप आफिसर ग्रुप 'बी' के रूप में नियुक्त करते हैं। वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

सं० 2463, दिनांक 8 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति सितियर वर्कशाप आफिसर श्री एन० बी० परमेश्वरन को अस्थाई वर्कशाप सुप्रिडेंडेंट के रूप में ई० एम० ई० कोर में अगले हुकम तक तिथि 23 सितम्बर 1980 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

सं० 2464, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति आफिस सुप्रिडेंडेंट ग्रेड-I श्री लक्ष्मन दास को तिथि 1 अगस्त 1980 (अपराह्न) से ई० एम० ई० कोर में अगले आदेश तक अस्थाई ई० एम० ई० आफिसर (सिव०) नियुक्त किये जाते हैं। वह दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

सं० 2465, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति स्थाई लेक्चरर/अस्थाई अस्मिटेड प्रोफेसर श्री पी० बी० आर० जगदीश को स्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ई० एम० ई० कोर में तिथि 5 मई 1980 से नियुक्त करते हैं।

सैनिक इंजीनियर्स सेवाएं

सं० 2466, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्त की :—

श्री बी० एस० मन्डालिका, स्थाई ई० ई०, अस्थाई एम० ई० को अपने कार्यों के अतिरिक्त ड्राईरक्टर कन्ट्रोल प्लानिंग के पूर्ण कार्यों को करने के लिए ई० एन० सी० बांच में दिनांक 15 दिसम्बर 1979 से 26 फरवरी 1980 तक नियुक्त किया।  
उमा कान्त मिश्रा, अवर सचिव

सं० 2467, दिनांक 17 सितम्बर, 1980—परख अवधि पूरा होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की नियुक्ति को पक्का करते हैं :—

(नियमित सेना)

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट टी० किशन (एन० टी० आर० 16368-एम०) सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-नकलीकी)—9 अप्रैल, 1978।

2/लेफ्टि० एस० एस० कैन्दूरा, (एन० टी० आर-16367-के०), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी)—9 अप्रैल, 1978।

#### अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन सुवीर शर्मा, (एम० एस०-09825 एम०), ए० एम० सी०—2 जनवरी, 1977।

कैप्टन मुबोध कुमार गुप्ता (एम० एस० 10062 एन०) ए० एम० सी०—15 अक्टूबर 1978।

2/लेफ्टि० (अब लेफ्टि०) एस० के० घोसाल, (एन० टी० एस०-17347-एच०), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी)—9 अप्रैल, 1978।

लेफ्टि० बी० पी० सिंह, (एन० टी० एस०-17354-वाई०), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी) 17 मई, 1979।

2/लेफ्टि० जे० जार्ज (एन० टी० एस० 17355-एफ०), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी)—17 मई, 1979।

2/लेफ्टि० बी० साईबाबा, (एन० टी० एस० 17357-एम०), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी)—17 मई, 1979।

टी० जी० समतानी, अध्वरसचिव

सं० 2468, दिनांक 29 सितम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### स्थायी आयोग

लेफ्टि० कर्नल से कर्नल के रैंक में

आर० के० कोछड़ (एम० आर० 576) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० 30 जनवरी 1979 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर कोई प्रभाव डाले बिना 31 मई 1976 से)।

टी० के० बोस, उपसचिव

सं० 2469, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### स्थायी आयोग

ले० कर्नल से कर्नल

टी० एन० सिंह (एम० आर० 1157) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० 24 मार्च 1979 से (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर कोई प्रभाव डाले बिना 1 अप्रैल, 1977 से)।

ए० के० दत्ता (एम० आर०-03095 डब्ल्यू०) सैनिक डाक्टरी कोर—24 जून, 1980।

बी० सिंह (एम० आर० 03069 पी०), सैनिक डाक्टरी कोर—24 जून, 1980।

बी० के० गुप्ता (एम० आर०-03082 वाई०) सैनिक डाक्टरी कोर—24 जून, 1980।

एस० एस० रजौरिया (एम० आर०-02107 एन०) सैनिक डाक्टरी कोर—4 अगस्त, 1980।

एस० आर० भोवाल, (एम० आर०-01980 वाई०), सैनिक डाक्टरी कोर—9 अगस्त, 1980।

पी० सिल, (एम० आर०-02328 ए०), सैनिक डाक्टरी कोर, 10 अगस्त 1980।

मेजर (सर्जन लेफ्टि० कमा०) से लेफ्टि० कर्नल (सर्जन कमा०) के रैंक में

एच० पी० मुखर्जी (एम० आर०-02403 वाई०) (75091 के०) सैनिक डाक्टरी कोर—10 अगस्त, 1980।

कैप्टन से मेजर के रैंक में

पी० के० डनडोना (एम० आर०-03218-एक्स०), सैनिक डाक्टरी कोर—7 मार्च, 1979।

आर० के० मलिक, (एम० आर०-03238-एल०), सैनिक डाक्टरी कोर—1 दिसम्बर, 1979।

के० सिंह, (एम० आर०-03298-ए०), सैनिक डाक्टरी कोर—1 जून, 1980।

एम० एस० बैग, (एन० टी० आर०-16109-के०), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी)—20 जून, 1980।

ए० विजयन, (एन० टी० आर०-16264-एल०), सैनिक डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी)—20 जून, 1980।

जी० सैमसन, (एन० टी० आर०-16266-डब्ल्यू०), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी)—20 जून, 1980।

2/लेफ्टि० से लेफ्टि० के रैंक में

सोहन लाल, (एन० टी० आर०-16362-एल०), सैनिक चिकित्सा सेवा (गैर-तकनीकी)—9 अप्रैल, 1980।

एम० एस० नारायणन, (एन० टी० आर०-16363-एन०), सैनिक चिकित्सा सेवा (गैर-तकनीकी)—9 अप्रैल, 1980।

#### अल्पकालीन आयोग

कप्तान (फ्लाइट लेफ्टिनेंट) से अर्द्ध-स्थायी मेजर (स्क्वाड्रन लीडर) के पद पर

(मिसेज) एन० साधीर (एम० एस०-09522-एक्स०) (14013), ए० एम० सी०—1 जून, 1980।

कप्तान से अर्द्ध-स्थायी मेजर के पद पर

आर० एस० संघा (एम० एस०-09326-एक्स०) ए० एम० सी०—19 जुलाई, 1980।

कप्तान से अर्द्ध-स्थायी मेजर के पद पर (परख पर)

यू० एन० मोहता (एम० एस०-10503-वाई०) ए० एम० सी०—3 जुलाई, 1980।

लेफ्टिनेन्ट (फ्लाइट) आफिसर) से कैप्टन (फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट)  
के पद में (परख पर)

एस० कुदेमिया (एम० एस०-10551-वाई०) (15675)  
ए० एम० सी०—8 दिसम्बर, 1979।

लेफ्टिनेन्ट (सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट) से कैप्टन (सर्जन लेफ्टिनेन्ट)  
के पद में (परख पर)

(मिस) एस० देवधर (एम० एस०-10548-वाई०),  
(75247-आर०), ए० एम० सी०—8 दिसम्बर, 1979।

लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन के पद में (परख पर)

आर० कपूर (एम० एस०-10591-ए०), ए० एम० सी०—  
1 जून, 1980।

बी० गांगुली (एम० एस०-10490-एम०) ए० एम० सी०—  
8 जून, 1979।

2/लेफ्टिनेन्ट से लेफ्टिनेन्ट के रैंक में (परख पर)

एम० सी० जोशी (एन० टी० एस०-17351 एल०), सैनिक  
डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी)—9 अप्रैल 1980।

टी० जी० समतानी, अवर सचिव

सं० 2470, दिनांक 1 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित अफसर की पदोन्नति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टी नेन्ट से कैप्टन

पी० के० बेहल (टी० ए०-41394) इन्फैन्ट्री—1 जून,  
1976।

एच० एस० जामवाल (टी० ए०-41194) इन्फैन्ट्री—  
6 जून 1978।

एम० एल० कपूर, अवर सचिव

सं० 2471, दिनांक 4 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जे० सी० 74498)—1  
जुलाई, 1980

नायब सूबेदार गोपाल सावन्द (जे० सी० 78077)—  
1 अगस्त, 1980।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुमारन के० पी० (सं० 11034630 अब  
जे० सी० 98753 ए०)—9 अगस्त, 1979।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार हंस राज (सं० 2948703 अब जे० सी०  
98754 ए०)—3 जनवरी, 1980 \*\*।

हवलदार इन्द्रदेव सिंह (सं० 6810358 अब जे० सी०  
98755 ए०), हवलदार भगत सिंह रावत (सं० 4039757  
अब जे० सी० 98756 ए०)—4 जनवरी, 1980।\*\*

हवलदार सुरेश वत्त (सं० 10402284 अब जे० सी०  
98757 डब्ल्यू०), हवलदार उमेद सिंह (सं० 3145646  
अब जे० सी० सं० 98758 वाई०), हवलदार प्यारा सिंह सं०  
1560990 अब जे० सी० 98759 ए०—5 जनवरी  
1980।\*\*

हवलदार बालकृष्ण भट्ट (सं०-1409017 अब जे० सी०  
98760 डब्ल्यू०)—7 जनवरी, 1980।\*\*

बी० एच० एम० नत्था राम (सं० 2844460 अब जे०  
सी० 98761 वाई०), हवलदार पी० गोपालन (सं० 11033600  
अब जे० सी० 98762 ए०)—8 जनवरी, 1980 \*\*।

हवलदार के० सवरियप्पन (सं० 10162305 अब जे०  
सी० 98763 के०), सी० क्यू० एम० एच० राम सिंह (सं०  
1112918 अब जे० सी०-98764 ए०), हवलदार लक्ष्मी  
चन्द (सं० 1143994 अब जे० सी०-98765 पी०)—9  
जनवरी 1980 \*\*।

हवलदार रामस्वरूप (सं० 8805545 अब जे० सी०  
98766 ए०), हवलदार चिन्नप्पन (सं० 1301330 अब  
जे० सी० 98767 ए०), हवलदार लाभ सिंह (सं० 8823447  
अब जे० सी० 98768 ए०)—10 जनवरी, 1980।\*\*

हवलदार सन्तोषा गोटे (सं० 6764209 अब जे० सी०  
98769 ए०), 11 जनवरी 1980।\*\*

सी० एच० एम० सुभ राम सं० 6887827 अब जे० सी०  
98770 ए०), 11 जनवरी 1980।\*\*

हवलदार अमर सिंह (सं० 4145518 अब जे० सी०-98771  
ए०), 11 जनवरी, 1980 \*\*।

हवलदार उमेद सिंह (सं० 13655461 अब जे० सी०  
98772 ए०) 11 जनवरी 1980।\*\*

हवलदार कालप्पा चिन्मानी (सं० 10116813 अब  
जे० सी० 98773 ए०), हवलदार मूल चन्द (सं० 11857932  
अब जे० सी० 98774 डब्ल्यू०) 14 जनवरी 1980।\*\*

हवलदार राजेन्द्र बहादुर सिंह (सं० 2950767 अब जे०  
सी० 98775 वाई०)—15 जनवरी, 1980 \*\*।

हवलदार मातु राम (सं० 2648109 अब जे० सी०  
98776 ए०)—17 जनवरी, 1980।\*\*

सी० क्यू० एम० एच० प्रेमपाल सिंह (सं० 2948877  
अब जे० सी० 98777 के०) 18 जनवरी 1980।\*\*

हवलदार हीरा सिंह (सं० 2637971 अब जे० सी०-98778  
ए०) 18 जनवरी 1980।\*\*

हवलदार रिशीपाल सिंह (सं० 6887415 अब जे० सी०  
98779 पी०)—18 जनवरी, 1980 \*\*

हवलदार नारायण सिंह रावत (सं० 10179844 अब  
जे० सी० 98780 के०)—24 जनवरी 1980।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 1979 दी जाएगी)।



## इन्फैन्ट्री

## आसाम रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र चन्द्र दास (सं० 4338663 एम० अब जे० सी० 98825 वाई०)—4 नवम्बर, 1979।

## बिहार रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० राधा कृष्णा साहू (सं० 4238094 पी० अब जे० सी०-98823 एन०)—20 जुलाई, 1979।

हवलदार घट्टू प्रसाद सिंह (सं० 4240909 के अब जे० सी०-98824 डब्ल्यू०)—14 दिसम्बर, 1979\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 1979 से दी जाएगी)।

## डोगरा रेजिमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अमीन चन्द (जे० सी०-44360 डब्ल्यू०)—1 जुलाई, 1980।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मंगल राम (जे० सी०-77469 डब्ल्यू०), नायब सूबेदार बालक राम (जे० सी०-72370 डब्ल्यू०), और नायब सूबेदार केहर सिंह (जे० सी०-80812 वाई०)—1 जुलाई, 1980।

नायब सूबेदार शंकर दाम (जे० सी० 78573 डब्ल्यू०)—12 जून, 1980।

नायब सूबेदार सफरी राम (जे० सी० 81567 एन०)—1 जुलाई, 1980।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रणजीत सिंह (सं० 3955841 एफ० अब जे० सी० 98831 एम०), हवलदार मेहर चन्द (सं० 3948588 एच० अब जे० सी० 98832 पी०)—1 नवम्बर, 1979।

## गढ़वाल रायफल्स

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चन्द्र सिंह (सं० 4040288 एम० अब जे० सी० 98827 के०)—11 अगस्त, 1979।

हवलदार उमराव सिंह कठैत (सं० 4038062 एच० अब जे० सी० 98828 एम०)—1 नवम्बर, 1979।

2-344 GI/80

हवलदार यमवन्त सिंह नेगी (सं० 4041203 एफ० अब जे० सी० 98829 पी०)—1 दिसम्बर, 1979।

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) नेत्रा सिंह (सं० 4038886 एल० अब जे० सी० 98830 के०)—7 दिसम्बर, 1979\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 1979 से दी जाएगी)।

## 3 जी० आर०

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क विशन सिंह थापा (सं० 5234199 एफ० अब जे० सी० 98820 ए०)—1 जनवरी, 1980।

## 5 जी० आर०

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्र बहादुर गुरूंग (जे० सी० 76934 एल०)—1 जुलाई, 1980।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तिल बहादुर थापा (सं० 5437572 एफ० अब जे० सी० 98815 पी०)—2 अगस्त, 1979।

हवलदार दल बहादुर थापा (सं० 5438023 एन० अब जे० सी० 98816 एफ०)—3 अगस्त, 1979।

हवलदार गन बहादुर पुन (सं० 5437654 के० अब और जे० सी० 98817 ए०)—1 अक्टूबर, 1979।

हवलदार नरेश बहादुर पुन (सं० 5438361 एल० अब जे० सी० 98818 एच०)—1 नवम्बर, 1979।

हवलदार छत्रमान गुरूंग (सं० 5436775 वाई० अब जे० सी० 98819 एल०)—1 दिसम्बर, 1979।

## [8 जी० आर०

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बुधि बहादुर थापा (जे० सी०-56949 एम०)—1 मई, 1980।

नायब सूबेदार शेर बहादुर गुरूंग (जे० सी०-74934 एम०)—27 मई, 1980।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करन बहादुर (सं० 5739766 एफ० अब जे० सी०-98810 डब्ल्यू०), हवलदार कृष्णा कुमार थापा (सं० 5740499 एफ० अब जे० सी०-98811 वाई०), हवलदार भीम बहादुर थापा (सं० 5741656 एल० अब जे० सी०-98812 एफ०), हवलदार धन बहादुर पुन (सं० 5739495 पी० अब जे० सी०-98813 के०)—1 नवम्बर, 1979।

हवलदार करना बहादुर गुरुंग (सं० 5740978 वाई०  
अब जे० सी०-98814 एम०) — 1 दिसम्बर, 1979।

#### 9 जी० आर०

नायब सूबेदार (बैड मास्टर) के रैंक में

हवलदार (बैड मेन) राम सिंह दर्जी (सं० 5834628  
एल० अब जे० सी०-98809 एफ०) — 14 सितम्बर, 1979। \*

\*(नायब सूबेदार (बैड मास्टर) के रैंक में वेतन और  
भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 अगस्त, 1979 से  
दी जाएगी)।

#### 11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महेन्द्र सिंह थापा (सं० 9406114 एच०  
अब जे० सी०-98802 एक्स०) — 28 अगस्त, 1979।

हवलदार ग्र्याम प्रसाद राई (सं० 5440924 वाई०,  
अब जे० सी०-98803 ए०) — 1 नवम्बर, 1979।

हवलदार मन मोहन लिम्बू (सं० 9405503 डब्ल्यू०  
अब जे० सी०-98804 एच०), हवलदार नन्दा बहादुर लिम्बू  
(सं० 9408148 पी० अब जे० सी०-98805 एल०) —  
1 दिसम्बर, 1979।

हवलदार जय बहादुर राई (सं० 9404412 ए० अब  
जे० सी०-98806 एन०) — 1 दिसम्बर, 1979।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर, 1978 से दी जाएगी)।

हवलदार बिरेंद्र सिंह छेत्री (सं० 9406595 ए० अब जे०  
सी० 98807 डब्ल्यू०) — 8 जुलाई, 1979।

हवलदार मनि राज लिम्बू (सं० 9405076 एल० अब  
जे० सी०-98808 वाई०) — 1 नवम्बर, 1979।

#### जाट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क जागे राम (जे० सी० 53573 एल०) —  
1 अप्रैल, 1980।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रश्पाल सिंह (जे० सी० 72515 डब्ल्यू०) —  
1 अप्रैल, 1980।

नायब सूबेदार रेखा राम (जे० सी० 75118 एच०),  
नायब सूबेदार घरसी राम (जे० सी० 79453 के०), नायब  
सूबेदार अतरज सिंह (जे० सी० 72513 एल०), नायब सूबेदार  
बृजन राम (जे० सी० 77476 एम०) — 1 मई, 1980।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी० 66568 वाई०),  
नायब सूबेदार मकुन्द सिंह (जे० सी० 80781 के०), नायब  
सूबेदार मुल्तान सिंह (जे० सी० 76905 डब्ल्यू०), नायब

सूबेदार भीम सिंह (जे० सी० 76893 एम०), नायब सूबेदार  
मुक्तिधर सिंह (जे० सी० 76895 एक्स०), नायब सूबेदार  
गनेशा राम (जे० सी० 76896 ए०) — 1 जून, 1980।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ननमुख राय (सं० 3146432 एल० अब जे०  
सी० 98842 वाई०) — 18 दिसम्बर, 1979। \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 2 जुलाई 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार धर्म लाल (सं० 3146524 एक्स० अब जे०  
सी० 98843 एफ०) — 29 अक्टूबर, 1979। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार राम फल (सं० 3143934 एच० अब जे०  
सी०-98844 के०) — 1 नवम्बर, 1979।

हवलदार लेख राम (सं० 3143223 एच० अब जे० सी०  
98845 एम०) — 14 नवम्बर, 1979।

हवलदार जगदेव सिंह (सं० 3144230 एल० अब जे०  
सी० 98846 पी०) — 30 नवम्बर, 1979।

हवलदार सुबा सिंह (सं० 3145852 वाई० अब जे०  
सी० 98847 एक्स०) — 7 दिसम्बर, 1979।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क जगदीश प्रसाद (सं० 3144063 ए०  
अब जे० सी० 98848 ए०) — 1 अक्टूबर, 1979।

जम्मू तथा काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बूटी सिंह (सं० 13717779 एक्स० अब जे०  
सी० 98795 एम०) — 12 नवम्बर, 1979। \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार बिशन सिंह (सं० 13719308 पी० अब जे०  
सी० 98796 पी०) — 20 नवम्बर, 1979। \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार कश्मीर सिंह (सं० 13720917 एल० अब  
जे० सी० 98797 एक्स०) — 3 अक्टूबर, 1979 =

= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 6 जुलाई 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार परकाश चन्द (सं० 13718055 वाई० अब  
जे० सी० 98798 ए०) — 17 जुलाई, 1979।

हवलदार जसवन्त सिंह (सं० 13727244 के० अब जे०  
सी० 98799 एच०) — 19 अक्टूबर, 1979।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों का प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 4 अगस्त, 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार सूरज सिंह (सं० 13718711 पी० अब जे० सी० 98800 एम०)—13 नवम्बर 1979।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रक में

हवलदार लिपिक राजेश वर्मा (सं० 13721021 डब्ल्यू० अब जे० सी० 98801 पी०)—1 नवम्बर, 1979।

कुमाऊँ रेजिमेंट  
सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नर बहादुर चन्द (जे० सी० 78704 डब्ल्यू०)—1 दिसम्बर, 1979।

नायब सूबेदार आनन्द सिंह (जे० सी० 78868 एम०)—1 जनवरी, 1980।

नायब सूबेदार पान सिंह (जे० सी० 68262 पी०)—1 मार्च, 1980।

नायब सूबेदार हरी लाल (जे० सी० 72485 के०)—1 जुलाई, 1980।

नायब सूबेदार के रक में

हवलदार दलीप सिंह (सं० 4146338 एक्स० अब जे० सी० 98826 एफ०)—24 नवम्बर, 1979\*

\*(नायब सूबेदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 अक्टूबर 1979 से दी जाएगी)।

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार के रक में

नायब सूबेदार हेनरी फर्नान्डिस (जे० सी० 62553 बै०)—1 मई, 1980।

नायब सूबेदार जोर्ज के० ए० (जे० सी० 64831 ए०)—9 मई, 1980।

नायब सूबेदार भास्करन के० (जे० सी० 65321 एल०)—1 जून, 1980।

सूबेदार (क्लर्क) के रक में

नायब सूबेदार क्लर्क सी० बी० अलक्सान्डर (जे० सी० 64057 डब्ल्यू०)—1 जून, 1980।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार के० के० रामकृष्ण पिल्ल (सं० 2551668 एफ० अब जे० सी० 98871 एन०)—31 अक्टूबर, 1979।

हवलदार डी० मरिया रसल (सं० 2552425 एच० अब जे० सी० 98872 डब्ल्यू०)—5 नवम्बर, 1979।

बी० एच० एम० विक्रमन नायर (सं० 2558300 एफ० अब जे० सी० 98873 वाई०)—9 दिसम्बर, 1979।

हवलदार कृष्णन कुट्टि राजु (सं० 2557071 पी० अब जे० सी० 98874 एफ०), बी० क्यू० एम० एच० केशवन (सं० 2557051 एफ० अब जे० सी० 98875 के०), सी० क्यू०

एम० एच० गोपाल पिल्लै मणिकण्ठन नायर (सं० 2557949 एन० अब जे० सी० 98876 एम०)—27 दिसम्बर, 1979।

सी० एच० एम० एन० सान्दप्पन (सं० 2547996 एक्स० अब जे० सी० 98877 पी०), सी० एच० एम० कृष्णन नायर (सं० 2551750 डब्ल्यू० अब जे० सी० 98878 एक्स०)—2 जनवरी, 1980।

हवलदार एम० नटराजन (सं० 2558318 एक्स अब जे० सी० 98879 ए०)—12 दिसम्बर, 1979\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार ई० रामन कुट्टि (सं० 2550528 एच० अब जे० सी० 98880 पी०), हवलदार धनपाल रेड्डि मुत्तुस्वामि (सं० 2550302 एक्स० अब जे० सी० 98881 एक्स०)—30 अक्टूबर, 1979।

हवलदार पी० एन० गोपालन (सं० 2552854 के० अब जे० सी० 98882 ए०), सी० क्यू० एम० एच० के० राजु (सं० 2546883 एच० अब जे० सी० 98883 एच०), हवलदार कुरुप्पनपालत रामन रवि (सं० 2559715 एच० अब जे० सी० 98884 एल०)—1 दिसम्बर, 1979।

सी० क्यू० एम० एच० कोम्बी वेलायुधन (सं० 2556804 डब्ल्यू० अब जे० सी० 98885 एन०)—9 दिसम्बर, 1979।

हवलदार काकशेरिल गोविन्दन श्रीधरन (सं० 2554431 पी० अब जे० सी० 98886 डब्ल्यू०)—12 दिसम्बर, 1979।

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क प्रभुनाथ गोस्वामी (सं० 9203999 एन० अब जे० सी० 98821 एच०)—8 सितम्बर, 1979।

हवलदार क्लर्क अमर नाथ शुक्ला (सं० 9204060 के० अब जे० सी० 98822 एल०)—6 अक्टूबर, 1979।

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

पी० ए० हवलदार सदाशिव पवार (सं० 2756715 एफ० अब जे० सी० 98856 वाई०)—1 दिसम्बर, 1979।

पी० ए० हवलदार संभाजी विसूरकर (सं० 2758102 ए० अब जे० सी० 98857 एफ०)—20 दिसम्बर, 1979\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1979 से दी जाती है)।

हवलदार आत्मा राम चालके (सं० 2751098 ए० अब जे० सी० 98858 के०)—29 दिसम्बर, 1979।

मैकनाईज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पदम सिंह (सं० 2846896 के० अब जे० सी० 98745 एफ०)—24 अप्रैल, 1979।

हवलदार विरेन्द्रा कुमार सिंह (सं० 2844992 पी० अब जे० सी० 98746 के०)—22 जून, 1979\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार सी० एन्थोनी दानाबल (सं० 2547862 वाई० अब जे० सी० 98747 एम०), हवलदार गोविन्दन टावामनी (सं० 2549583 एम० अब जे० सी० 98748 पी०), हवलदार गनपत सिंह (सं० 3947957 एच० अब जे० सी० 98749 एक्स०), 24 अप्रैल 1979।

हवलदार स्वामी राम (सं० 3947702 एच० अब जे० सी० 98750 एम०)—24 जून, 1979\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल, 1979 से दी जाएगी)।

सी० क्यू० एम० एच० मंगल सिंह (सं० 2957222 डब्ल्यू० अब जे० सी० 98751 पी०)—4 अक्टूबर, 1979।

हवलदार रवीन्द्र सिंह (सं० 3343846 डब्ल्यू० अब जे० सी० 98752 एक्स०)—13 नवम्बर, 1979।

पंजाब रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार निरंजन सिंह (जे० सी० 76205 एच०)—1 अप्रैल, 1980।

नायब सूबेदार परस राम (जे० सी० 74857 एच०)—1 जून, 1980।

नायब सूबेदार सेवा सिंह (जे० सी० 67512 वाई०)—1 जुलाई, 1980।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ओम प्रकाश भरमौरिया (सं० 2446307 अब जे० सी० 98700 एफ०) 15 अगस्त 1979।

हवालदार दरबारा सिंह (सं० 2446041 एच० अब जे० सी० 98701 के०) 01 अक्टूबर 1979।

हवालदार मोहिन्दर सिंह (सं० 2445629 एक्स अब जे० सी० 98702 एम०) 02 अक्टूबर 1979।

हवलदार पृथ्वी चन्द (सं० 2442699 एल अब जे० सी० 98703) 01 दिसम्बर 1979।

हवलदार मुख्त्यार सिंह (सं० 2444346 के अब जे० सी० 98704 एक्स०) 01 नवम्बर 1979।

हवालदार दलवीर सिंह (सं० 2443614 डब्ल्यू अब जे० सी० 98705) 03 नवम्बर 1979।\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1979 से दी जायगी।

हवलदार मोहिन्दर सिंह साहोत्रा (सं० 2442985 एम० अब जे० सी० 98706 एच०) 24 नवम्बर 1979।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1979 से दी जायगी।

हवलदार हरभजन सिंह (सं० 2443636 बी अब जे० सी० 01 दिसम्बर 1979।

हवलदार केहर (सं० 2444646 एल अब जे० सी० 98708 एन०) 01 दिसम्बर 1979।

नायब सूबेदार भागमल (जे० सी० 56049 एच०) 01 मई, 1980

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 2951939 एफ० अब जे० सी० 98849 एच०)—1 दिसम्बर, 1979।

हवलदार भीम सिंह (सं० 2950526 एल० अब जे० सी० 98850 एक्स०)—8 दिसम्बर, 1979।

हवलदार गौरंगा चन्द्र दास (सं० 2953369 पी० अब जे० सी० 98851 ए०)—1 अक्टूबर, 1979।

हवलदार कौशल किशोर सिंह (सं० 2946326 एक्स० अब जे० सी० 98852 एच०)—5 दिसम्बर, 1979।

हवलदार हरि नारायण दुबे (सं० 2947962 एक्स० अब जे० सी० 98853 एल०), हवलदार भीम सिंह (सं० 2948458 के० अब जे० सी० 98854 एन०)—1 जनवरी, 1980।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क बेगराज शर्मा (सं० 2949057 एफ० अब जे० सी० 98855 डब्ल्यू०)—9 दिसम्बर, 1979।

राजपूताना राइफल्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मोहम्मद हनीफ (जे० सी० 78565 एक्स०)—1 मई, 1980।

नायब सूबेदार शीतला प्रसाद सिंह (जे० सी० 72541 एक्स०)—1 अगस्त, 1980।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सूरजभान सिन्धू (जे० सी० 61920 एन०)—1 अगस्त, 1980।

सिख रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार इकबाल सिंह (जे० सी० 80057 ए०)—21 जून, 1980।

नायब सूबेदार गुरदियाल सिंह (जे० सी० 82794 ए०), नायब सूबेदार अर्जन सिंह (जे० सी० 82790 के०)—1 जुलाई, 1980।

नायब सूबेदार शिवदेव सिंह (जे० सी० 79211 एफ०), नायब सूबेदार कर्नेल सिंह (जे० सी० 79852 एन०), नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी० 82054 एल०)—1 जून, 1980।

नायब सूबेदार मिलखा सिंह (जे० सी० 62716 एफ०), नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी० 68448 वाई०), नायब सूबेदार नछत्तर सिंह (जे० सी० 69032 एन०), नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जे० सी० 76473 एम०), नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी० 76480 एच०) नायब सूबेदार बचनसिंह (जे० सी० 78453 एक्स०), नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी० 82575 वाई०)—1 जुलाई, 1980।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क दीदार सिंह (जे० सी० 70179 डब्ल्यू०)—1 जून, 1980।

नायब सूबेदार क्लर्क सुमेल सिंह (जे० सी० 71625 वाई०)—1 जुलाई, 1980।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरभजन सिंह (सं० 3349781 के० अब जे० सी० 98839 वाई०)—2 दिसम्बर, 1979\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार कर्नेल सिंह (सं० 3348550 एफ० अब जे० सी० 98840 एन०)—1 नवम्बर, 1979।

सी० एच० एम० चरन सिंह (सं० 3352758 एफ० अब जे० सी० 98841 डब्ल्यू०)—5 सितम्बर, 1979।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शमशेर सिंह (सं० 3350864 एफ० अब जे० सी० 98833 एक्स०)—6 अगस्त, 1979\* ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मई 1979 से दी जाएगी) ।

हवलदार गुरबचन सिंह (सं० 3353433 ए० अब जे० सी० 98834 ए०)—28 जुलाई, 1979 ।

हवलदार जरनेल सिंह (सं० 3349081 डब्ल्यू० अब जे० सी० 98835 एच०)—24 अगस्त, 1979 ।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 1979 से दी जाएगी) ।

सी० एच० एम० तरसेम सिंह (सं० 3347949 एम० अब जे० सी० 98836 एल०)—16 नवम्बर, 1979 ।

## नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क मनोहर सिंह (सं० 3350268 पी० अब जे० सी० 98837 एन०)—1 सितम्बर, 1979 ।

हवलदार क्लर्क चन्द सिंह (सं० 3350300 वाई० अब जे० सी० 98838 डब्ल्यू०)—17 सितम्बर, 1979 @ ।

@ (नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 1979 से दी जाएगी) ।

## कोर आफ इजीनियर्स

एम० ई० एस० मिलिट्री केडर

(नायब सूबेदार के रैंक में)

हवलदार रामाकृष्णन (1330703 एल० अब जे० सी० 98661 एन०)—8 जून, 1979\* ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1978 से दी जाएगी) ।

हवलदार अब्राहम थोमस (1335887 वाई० अब जे० सी० 98662 डब्ल्यू०)—18 जून, 1979 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जून 1979 से दी जाएगी) ।

## (नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में)

हवलदार क्लर्क पचदेव सिंह (1429045 एम० अब जे० सी० 98663 वाई०)—12 सितम्बर, 1979 ।\*\*\*

हवलदार क्लर्क गदिल्ली नागामणि (1344540 एन० अब जे० सी० 98664 एफ०)—5 सितम्बर, 1979 ।\*\*\*

हवलदार क्लर्क साथरी चन्द्रयुद्ध (1345682 एक्स० अब जे० सी० 98665 के०)—30 जुलाई, 1979 ।\*\*\*

हवलदार क्लर्क कोम्पलिरा पोन्नअप्पा कालत्पा (1345957 अब जे० सी० 98666 एम०)—9 जुलाई, 1979 ।\*\*\*

हवलदार क्लर्क सागर यादव (1532999 एक्स० अब जे० सी० 98667 पी०)—10 अगस्त, 1979 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 1979 से दी जाएगी) ।

हवलदार क्लर्क बलवन्त सिंह (1533405 के० अब जे० सी० 98668 एक्स०)—6 सितम्बर, 1979 ।\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 जून 1979 से दी जाएगी) ।

हवलदार क्लर्क राघवन नायर जी (1533437 एम० अब जे० सी० 98669 ए०)—17 सितम्बर, 1979 ।\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 1979 से दी जाएगी) ।

हवलदार क्लर्क देवा सिंह (1533247 ए० अब जे० सी० 98670 पी०)—18 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क माखन सिंह (1443820 के० अब जे० सी० 98671 एक्स०)—14 सितम्बर, 1979 ।@%

हवलदार क्लर्क विद्या राम (1533550 एफ० अब जे० सी० 98672 ए०)—17 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क सत्य प्रकाश (1437282 एल० अब जे० सी० 98673 एच०)—14 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क कारप्पना गनेसन (1344519 एल० अब जे० सी० 98674 एल०)—7 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क दौलत राम राही (1532347 वाई० अब जे० सी० 98675 एन०)—13 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क मान सिंह (1438228 के० अब जे० सी० 98676 डब्ल्यू०)—18 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क रामास्वामी राजाराम मोहन राय (1342296 ए० अब जे० सी० 98677 वाई०)—14 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क गुरनाम सिंह (1442773 एल० अब जे० सी० 98678 एफ०)—18 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क अमरिक सिंह (1442785 ए० अब जे० सी० 98679 के०)—17 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क केवल सिंह (1443819 पी० अब जे० सी० 98680 वाई०)—14 सितम्बर, 1979 ।\*%

हवलदार क्लर्क हालप्पा गौडा शिवप्पा (1345795 ए० अब जे० सी० 98681 एफ०)—12 सितम्बर, 1979 ।\*%

\*% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 1979 से दी जाएगी) ।

## कोर आफ मिलिट्री पुलिस

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुल्तान सिंह (जे० सी० 65010 एक्स०)—1 अगस्त, 1980 ।

## कोर आफ सिगनल

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार शेख खाजा मोहिदीन (जे० सी० 60217)—  
1 जुलाई, 1979।

सूबेदार मेजर (ओ० पी० साइफर) के रैंक में

सूबेदार मनवर सिंह नेगी (जे० सी० 32120)—1 अक्तूबर,  
1979।

सूबेदार ए० आर० बालाकृष्णन् (जे० सी० 32122)—  
29 नवम्बर, 1979।

सूबेदार हरिबंस घुबे (जे० सी० 32125), सूबेदार पीराजू  
शर्मा बन्दकावी (जे० सी० 37231)—1 दिसम्बर, 1979।

सूबेदार जतिन्द्र नाथ मित्रा (जे० सी० 37947)—1  
फरवरी, 1980।

## सैनिक शिक्षा कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भानु भट्टाचार्य (सं० 9502335 एम० अब  
जे० सी० 98781 एम०), हवलदार देवी दत्त तिवारी (सं०  
9502352 एम० अब जे० सी०-98782 पी०)—19 नवम्बर,  
1979\*।

हवलदार चन्द्र किरण त्यागी (सं० 9502373 एच०  
अब जे० सी० 98783 एक्स०)—18 दिसम्बर, 1979\*।

हवलदार रमेश चन्द्र ओली (सं० 9502351 के० अब  
जे० सी० 98784 ए०)—20 दिसम्बर, 1979\*।

हवलदार राम सिंह (सं० 9502364 एफ० अब जे० सी०  
98785 एच०)—11 जनवरी, 1980\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्तूबर, 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार मकरन्द सिंह चौहान (सं० 9502383 एम०  
अब जे० सी० 98786 एल०)—20 दिसम्बर, 1979।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार बाबू राम यादव (सं० 9502403 पी० अब  
जे० सी० 98787 एन०)—2 दिसम्बर, 1979\*\*\*।

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर, 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार तुमला चेरु गिरिजा कन्थूडू (सं० 9502423  
एच० अब जे० सी० 98788 डब्ल्यू०)—24 दिसम्बर,  
1979।%

हवलदार श्याम लाल शर्मा (सं० 9502407 एल० अब  
जे० सी० 98789 वाई०)—29 दिसम्बर, 1979।%

हवलदार सत्य पाल सिंह (सं० 9502398 पी० अब  
जे० सी० 98790 एन०)—30 दिसम्बर, 1979।%

हवलदार कंवर सिंह यादव (सं० 9502417 पी० अब  
जे० सी० 98791 डब्ल्यू०)—4 जनवरी, 1980।%

हवलदार हरि चन्द (सं० 9502428 एफ० अब जे० सी०  
98792 वाई०)—14 जनवरी, 1980।%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार पोन्नू राजाता गिरिपति राव (सं० 9502454  
एच० अब जे० सी० 98793 एफ०)—13 दिसम्बर, 1979।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क भूपेन्द्र सिंह चन्द (सं० 9501274 एन०  
अब जे० सी० 98794 के०)—1 दिसम्बर, 1979।

## इन्फैंट्री

## ग्रेनेडियर्स

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क लेख राम (जे० सी० 63744 ए०)—  
1 अगस्त, 1980।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सरवण सिंह कप्यप (जे० सी०  
64030 वाई०)—1 अगस्त 1980।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मैद अहमद खां (जे० सी० 82366 एफ०)—  
1 नवम्बर, 1979।

नायब सूबेदार कपूर सिंह (जे० सी० 82614 एम०)—  
1 जनवरी, 1980।

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी० 66663 एल०),  
नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे० सी० 79102 पी०), नायब  
सूबेदार श्री राम (जे० सी० 82007 एन०), नायब सूबेदार  
पृथ्वी चन्द (जे० सी० 85857 ए०)—1 मार्च, 1980।

नायब सूबेदार अन्तर सिंह (जे० सी०-78692 एम०)—  
1 अप्रैल, 1980।

नायब सूबेदार अंगत चन्द (जे० सी० 63952 एच०)—  
1 मई, 1980।

नायब सूबेदार ब्रज लाल, एस० एम० (जे० सी० 85858  
एल०)—8 मई, 1980।

नायब सूबेदार राम करन (जे० सी०-80784 एफ०),  
नायब सूबेदार चैन सिंह शेखावत (जे० सी० 63946 एफ०)—  
1 जून, 1980।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी० 85806 पी०)—  
1 जुलाई, 1980।

नायब सूबेदार जिले सिंह (जे० सी० 79810 एफ०)—  
1 अगस्त, 1980।

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जे० सी० 79089 डब्ल्यू०)—  
19 जुलाई, 1979।

नायब सूबेदार तरणेश लाल (जे० सी० 68130 एफ०)—  
12 नवम्बर, 1979।

नायब सूबेदार बक्शी (जे० सी० 73015 एल०)—  
1 जनवरी, 1980।

नायब सूबेदार गुलाम हुसैन (जे० सी० 45119 डब्ल्यू०)—  
1 फरवरी, 1980।

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जे० सी० 77962 के०),  
नायब सूबेदार करतार चन्द (जे० सी० 72124 एल०)—  
1 मार्च, 1980।

नायब सूबेदार हरनाथ (जे० सी० 79707 डब्ल्यू०),  
नायब सूबेदार नासीरअली रवां (जे० सी० 61537 पी०),  
नायब सूबेदार प्रभु सिंह (जे० सी० 78171 वाई०), नायब  
सूबेदार सवाई सिंह (जे० सी० 62750 एफ०), नायब सूबेदार  
आलम शेर (जे० सी० 63925 एल०)—1 मई, 1980।

नायब सूबेदार रमेश भाई पटेल (जे० सी० 77629  
एल०) नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी० 75868  
एफ०)—1 जून, 1980।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रज्जन सिंह (सं० 2645124 एल० अब जे०  
सी० 98859 एम०)—1 अगस्त, 1979।

सी० क्यू० एम० एच० रती लाल (सं० 2659007 एल०  
अब जे० सी० 98860 एफ०)—28 अगस्त, 1979।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1979 से दी जाएगी)।

सी० क्यू० एम० एच० भगत राम (सं० 2642450 एच०  
अब जे० सी० 98861 के०), बी० क्यू० एम० एच० कमलेश  
सिंह (सं० 2653796 एम० अब जे० सी० 98862 एम०),  
बी० एच० एम० गिरधारी लाल वर्मा (सं० 2643312 एन०  
अब जे० सी० 98863 पी०), हवलदार धियान सिंह (सं०  
2645289 के० अब जे० सी० 98864 एक्स), सी० क्यू० एम०  
एच० जय लाल (सं० 2642338 डब्ल्यू० अब जे० सी०  
98865 ए०), सी० एच० एम० माधो सिंह (सं० 2643038  
एफ० अब जे० सी० 98866 एच०), हवलदार जयहिन्द सिंह  
(सं० 2653793 वाई० अब जे० सी० 98867 एल०)—  
1 सितम्बर, 1979।

बी० एच० एम० भाल सिंह (सं० 2642313 के० अब जे०  
सी० 98868 एन०)—6 अक्टूबर, 1979।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 1979 से दी जाएगी)।

सी० क्यू० एम० एच० पूर्ण सिंह (सं० 2645387 के० अब  
जे० सी० 98869 डब्ल्यू०)—17 नवम्बर, 1979।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 1979 से दी जाएगी)

हवलदार सरदार सिंह (सं० 2644583 एम० अब जे०  
सी० 98870 एल०)—24 अक्टूबर, 1979।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1979 से दी जाएगी)।

गारद बिग्रेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ए० बालाकृष्णन् (जे० सी०-36499 वाई०)—  
1 जुलाई, 1980।

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क पान लाल कपिला (जे० सी० 59351 एम०  
1 अगस्त, 1980।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी० 72556 ए०)—  
28 नवम्बर, 1979।

नायब सूबेदार जगन नाथ (जे० सी०-73672 पी०)—  
29 जनवरी, 1980।

नायब सूबेदार पूरनचंद (जे० सी०-63057 के०) 1 फरवरी  
1980।

नायब सूबेदार दीना नाथ (जे० सी०-72623 ए०)  
1 फरवरी 1980।

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-72942 एम०),  
नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जे० सी०-77667 एफ०)—  
1 जून, 1980।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-77964 पी०)—  
11 जून, 1980।

नायब सूबेदार जी सत्या सीलन (जे० सी०-72619  
एक्स०)—1 जुलाई, 1980।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क राम सिंह (जे० सी०-71439 एच०)—  
1 अगस्त, 1980।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बहा सिंह (सं० 3951354 एच० अब जे०  
सी० 98694 वाई०)—16 जुलाई, 1979।

हवलदार रिसाल सिंह (सं० 2443384 डब्ल्यू० अब जे०  
सी० 98695 एफ०)—10 नवम्बर, 1979\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार श्याम सिंह (सं० 3951984 के० अब जे० सी०  
98696 के०)—6 अक्टूबर, 1979।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 19 अगस्त, 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार भगवान राम (सं० 13651689 ए० अब जे० सी० 98697 एम०)—23 अगस्त, 1979।

हवलदार करमचन्द (सं० 3952133 के० अब जे० सी० 98698 पी०)—7 अक्टूबर, 1979।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार दलीप सिंह (सं० 3951899 एफ० अब जे० सी० 98699 एम०)—1 नवम्बर, 1979।

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रामदत्त (सं० 13656447 एफ० अब जे० सी० 98682 के०)—1 जुलाई, 1979।

हवलदार सूरजपाल सिंह वर्मा (सं० 13652744 एक्स० अब जे० सी० 98683 एम०), हवलदार भानुप्रताप सिंह (सं० 13655071 के० अब जे० सी० 98684 पी०)—3 अगस्त, 1979।

हवलदार धरम सिंह (सं० 13653783 एच० अब जे० सी० 98685 एक्स०)—8 अक्टूबर, 1979।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 सितम्बर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार अमर सिंह (सं० 1030998 एन० अब जे० सी० 98686 ए०)—16 सितम्बर, 1979।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 13653913 ए० अब जे० सी० 98687 एच०)—17 सितम्बर, 1979।

हवलदार शिव दयाल (सं० 13653927 ए० अब जे० सी० 98688 एल०)—29 अक्टूबर, 1979।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार मूल चन्द (सं० 13655947 एम० अब जे० सी० 98689 एन०)—14 सितम्बर, 1979।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार हरनाथ सिंह (सं० 13653372 के० अब जे० सी० 98690 एच०)—12 नवम्बर, 1979।

हवलदार मेहर चन्द (सं० 3953975 एफ० अब जे० सी० 98691 एल०)—1 दिसम्बर, 1979।

#### नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क देविन्द्र सिंह (सं० 7638103 एफ० अब जे० सी० 98692 एन०)—2 नवम्बर, 1979।\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1979 से दी जाएगी)।

हवलदार क्लर्क अमरीक सिंह परमार (सं० 1365361 वाई० अब जे० सी० 98693 डब्ल्यू०)—18 नवम्बर, 1979।\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1979 से दी जाएगी)।

एन० कृष्णन, अवसर सचिव

सं० 2472, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

#### नियमित सेना

##### स्थायी कमीशन

कर्नल ए० एस० सांगवान (आई० सी० 8035-एफ०) एम० एफ०—31 अगस्त 1980 (अपराह्न)।

पी० जी० जार्ज, अवसर सचिव

सं० 2473, दिनांक 25 अक्टूबर 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को अधिवर्ष आयु प्राप्त करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

#### नियमित सेना

##### स्थाई आयोग

कर्नल जी० सी० कपाहटिया (एम० आर० 1145-एक्स०)—सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 अगस्त 1980 (अपराह्न)।

टी० के० बोस, उप-सचिव

सं० 2474, दिनांक 20 सितम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को सैनिक सेवा से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

#### नियमित सेना

##### अल्पकालीन कमीशन

मेजर एस० बत्ता, एम० एस० 08367 पी०, ए० एम० सी०—20 जुलाई, 1980 (पूर्वाह्न)।

मेजर (स्ववाइन लीडर) एस० एन० परांजपे एम० एस० 08450-एम (12457), ए० एम० सी०, 19 अगस्त 1980 (पूर्वाह्न)।

मेजर यू० सी० पानिग्राही, (एम० एस० 08426 डब्ल्यू०) ए० एम० सी०—26 अगस्त 1980 (पूर्वाह्न)।

मेजर (मिसेज) आर० कोवर, एम० एस० (09290 के०), ए० एम० सी०—30 अगस्त, 1980 (पूर्वाह्न)।

मेजर ए० गदकारी, एम० एस०-09300 एच०, ए० एम० सी०—7 सितम्बर, 1980 (पूर्वाह्न)।

कैप्टन के० जेमुदासन, एम० एस० 09543 एन०, ए० एम० सी०—19 अगस्त, 1980 (पूर्वाह्न)।

कैप्टन (फ्लाईट लेफ्टि०) एस० रामाचन्द्रन, एम० एस० 09525 एल० (14006) ए० एम० सी०—28 अगस्त, 1980 (पूर्वाह्न)।



कैप्टन जी० सिंह, एम० एस०-09531 बाई०, ए० एम० सी०—28 अगस्त, 1980 (पूर्वाह्न)।

कैप्टन (फ्लाईट लेफ्टि०) ए० बाबा, एम० एस०-09532 सी० (14009), ए० एम० सी०—28 अगस्त, 1980 (पूर्वाह्न)।

कैप्टन ए० के० डे, एम० एस०-09569 एच०, ए० एम० सी०—28 अगस्त, 1980 (पूर्वाह्न)।

कैप्टन सी० एस० रामचन्द्रराव, एम० एस०-09563 एफ०, ए० एम० सी०—3 सितम्बर, 1980 (पूर्वाह्न)।

सं० 2475, दिनांक 22 अक्तूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नर्सिंग अफसर की सेवा विवाह के आधार पर समाप्त करते हैं :—

#### नियमित सेना मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी)

लेफ्टिनेन्ट कुमारी एस० देसाई (एन० टी०-15432), 15-8-1978 (सांय)।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी ए० एल० लोनारे (एन० टी०-15475), 3-5-1979 (सांय)।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी के० एन० सवरना बाई (एन० टी०-15477), 18-7-1979।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी सी० सी० चनकामनी (एन० टी०-15481) 7-9-1978 (सांय)।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी बी० एस० गलोरा (एन० टी० 15486), 11-9-1979 (सांय)।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी क्यू० आर० वैंटसन (एन० टी०-15499), 11-1-1979 (सांय)।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी अननामा मैथीयु (एन० टी०-15508), 16-11-77 (सांय)।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी आर० एन० सलोचना देवी (एन० टी०-15663), 12-1-1979 (सांय)।

लेफ्टिनेन्ट कुमारी एस० निर्मला (एन० टी०-15677), 16-10-1979 (सांय)।

#### शुद्धि पत्र

सं० 2476, दिनांक 17 सितम्बर, 1980—(i) रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1301, दिनांक 21 मई, 1980 को भारत के राजपत्र दिनांक 21 जून 1980 में प्रकाशित नियमित सेना अल्पकालीन कमीशन के अन्तर्गत (मिसेज) मंजू शर्मा के सामने “वेतन तथा भत्ता के लिए ज्येष्ठता 23 सितम्बर 1975” को हटाकर “वेतन तथा भत्ता के लिए ज्येष्ठता 23 मार्च 1975” प्रस्थापित किया जाए।

(ii) दिनांक 21 अक्तूबर 1978 को प्रकाशित भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2169, दिनांक 6 सितम्बर 1978 में चिम्मन लाल के आगे :—

“टी० ए० (एम०)—1103, ए० एम० सी० (टी० ए०)—28 सितम्बर 1976” के स्थान पर]

“टी० ए० (एम०)—1103, ए० एम० सी० (टी० ए०)—28 सितम्बर 1976 (कैप्टन के तौर पर 8 मार्च 1969 से वरीयता प्रदान की गई) पढ़ा जाए।

टी० जी० समतानी, अवसर सचिव।

#### (नौसेना ब्रांच)

सं० 2477, दिनांक 2 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अधिकारियों को 21-10-1980 से (आनरेरी) एडमिरल नियुक्त करते हैं :—

(i) वाइस एडमिरल (सेवा निवृत्त) आर० डी० कटारी

(ii) वाइस एडमिरल (सेवा निवृत्त) बी० एस० सोमन के० के० माथुर, संयुक्त सचिव।

सं० 2478, दिनांक 17 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति श्री बी० बी० राव वरिष्ठ फोरमैन को 17 जून 80 से 4 अक्तूबर 1980 तक श्री एम० चंद्रशेखरन प्रोसेस इंजीनियर, जिन्हें अवकाश प्रदान किया था, के स्थान पर स्थानापन्न प्रोसेस इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 2479, दिनांक 28 अक्तूबर, 1980—राष्ट्रपति श्री अमर सिंह वरिष्ठ फोरमैन (शस्त्र) को 11 सितम्बर 1980 से स्थानापन्न सिविलियन तकनीकी सहायक (शस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं :—

वे दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेंगे।

सं० 2480, दिनांक 5 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति श्री डी० बी० राव, वरिष्ठ फौजदारी फोरमैन को श्री के० के० रामन, सहायक आयुध पूर्ति अफसर, जिन्हें अवकाश प्रदान किया है, के स्थान पर 11 मार्च 1980 से 31 जुलाई 1980 तक 143 दिनों के लिए सहायक आयुध पूर्ति अफसर के रूप में नियुक्त करते हैं।

उमा कान्त मिश्रा, अवसर सचिव

सं० 2481, दिनांक 11 नवम्बर, 1980—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

स्थायी कमीशन

इंजीनियर ब्रांच

(कोर आफ नेवल कन्स्ट्रक्टर्स)

सब-लेफ्टिनेन्ट की लेफ्टिनेन्ट के पद पर

के० एम० साईनाथ (40608 आर०), 5-1-78, आई० सी० शर्मा (40609 टी०), 27-8-78, आर० डी० घवासीकर

(40606 के०), 20-6-78, श्रीर.सी० एस० एम० राज (40607 एन०), 20-3-78, रक्षा मंत्रालय का पत्र एन० सी०/3066/एन० एच० क्यू०/3182/डी० (एन०-ii) दिनांक 10 जून, 1977 देखें।

के० पी० भटनागर, अवसर सचिव

(वायुसेना)

सं० 2482, दिनांक 22 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट, स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

ए० भल्ला (11846), एस० के० सूद (11849), ए० जी० कत्रे (11852), यू० पी० सिंह (11853) डी० जे० एम० क्लेर (11855), एस० बी० एस० पॉल (11857), पी० एच० खोखर (11860), एन० शर्मा (11861), बी० भटेजा (11863), ए० एस० दुग्गल (11864), जी० एस० चौधरी (11870), एस० आर० असीर्वादिस (11871), डी० के० साहनी (11874), आर० एस० तथगर (11877), डी० जे० सिंह (11878), एस० अहमद (11883), एम० सुदर्शनन (11886), एन० एम० गुप्ता (11847)—29 दिसम्बर, 1979 से।

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

एम० एम० एस० दुग्गल (11802), ए० सेन (11803), एस० सी० मेहता (11804), के० के० रोह्तगी (11805), एम० एम० निजार (11806), आर० पी० सिंह (11807), मुदेश कुमार (11808), एस० सी० वधवा (11809), आर० भास्कर (11810), टी० चौधरी (11813), आई० एस० चौधरी (11814), आर० एन० रंजन (11815), के० सिंह (11817), आर० एस० धूल (11818), जे० जवियर (11822), बी० एन० शर्मा (11825), ए० पांड्या (11830), एम० जार्ज (11832), आर० कुमार (11833), आर० एस० अगता (11837), एम० जी० छाबड़िया (11839), जे० एस० जाधाल (11842), एस० श्रीनिवासन (11828), जे० एस० चटर्जी (11836), एच० एस० राणावत (11844)—29 दिसम्बर, 1979 से।

#### MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th November 1980

No. 2434, dated 24th October 1980.—The President is pleased to appoint Shri J P Rastogi, Junior Analyst, Min of Def as Senior Analyst, Min of Def on ad hoc basis wef the forenoon of 22nd Oct 1980 for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. 2435, dated 24th October 1980.—The President is pleased to appoint the following tempy Select List officers of the SO Gde of the CSS of the Min of Def cadre, in a substantive capacity to that grade wef the date shown against each :—

सं० 2483, दिनांक 13 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को, अधिवापि की आयु में पहुंचने पर, सेवा निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

भारतीय वायुसेना

परिभारिकी शाखा

विंग कमांडर एम० जे० मदोक (4179)—31 जुलाई 1980 (अपराह्न) से।

वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर सी० आर० दास गुप्ता (6867)—31 जुलाई 1980 (अपराह्न) से।

सं० 2484, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनके नाम के आगे दिखाई गई तारीख से, स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

भारतीय वायुसेना

इलेक्ट्रानिकी शाखा

विंग कमांडर एच० आर० सीधारामन (5163)—29 सितम्बर, 1977।

सं० 2485, दिनांक 21 अक्टूबर, 1980—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनके नाम के आगे दिखाई गई तारीख से, स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर तरलोक सिंह (6350)—9 जनवरी, 1978।

विंग कमांडर एम० के० रंगनाथन (5713)—10 अक्टूबर, 1979।

पायलट अफसर बी० आर० खरांडेकर (14745)—29 जून, 1978।

आर० के० धीर, अवसर सचिव

S. No., Name, Cadre to which belonged as Asstt/Steno Grade 'C' & Date of confirmation in S.O.'s Grade

1. Shri G L Sud Min of HA (Asstt)—1st May 1980.
2. Shri Des Raj Sharma (II) Min of Def (Steno Gde 'C')—1st May 1980.
3. Shri J S Joshi Min of Def (Asstt)—1st Aug 1980.
4. Shri Punnu Ram Min of Agri (Asstt)—1st Sept 1980.
5. Shri N C Salhotra Min of Def (Steno Gde 'C')—1st Oct 1980.

No. 2436, dated 24th October 1980.—The President is pleased to permit the following officers of CSS cadre of Min

of Def to retire from Government Service on attaining the age of superannuation wef the afternoon of 31st Oct 1980 :—

1. Shri S K Kaul, pmt SO working as Desk Officer.
2. Shri S L Sharma, pmt Asstt/tempy SO.

V LAKSHMI, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 2437, dated 31st October 1980.—The undermentioned officer voluntarily retired from service wef the date shown :—

##### *Defence Quality Assurance Service*

Shri L H SHAW, tempy SSO I (pmt SSO II), Controлле-rate of Inspection (Ammunition) Kirkee, 3rd May 1980 (AN).

No. 2438, dated 31st October 1980.—The undermentioned officer retired from service on attaining the age of superannuation wef the date shown :—

##### *Directorate General of Inspection Organisation*

Shri S J DESAI, tempy JSO (pmt Foreman), Controлле-rate of Inspection (Ammunition), Kirkee, 31st Mar 1980 (AN).

I K SEHGAL, Dy Dir (Pers).

#### NATIONAL CADET CORPS

No. 2439, dated 27th October 1980.—The President is pleased to accept the resignation of the following officers from the National Cadet Corps wef 20th May, 1980. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps :—

##### *Junior Division (Army Wing)*

##### *Andhra Pradesh*

F/O G N Rao (NCCJ/41431) (24th July, 1979 to 19th May 1980).

S/O R Pullaiah (NCCJ/41310) (1st Aug 1979 to 19th May, 1980).

##### *Delhi*

S/O V P Saraswat (NCCJ/6369) (5th Nov 1979 to 19th May, 1980).

##### *Gujarat*

S/O R K Sorathia (NCCJ/35505) (1st May, 1980 to 19th May, 1980).

##### *Kerala*

S/O V Mohanan (NCCJ/25592) (1st Apr 1979 to 19th May, 1980).

F/O S N Pillai (NCCJ/25354) (1st Nov 1979 to 19th May 1980).

S/O V Sasidharan (NCCJ/25661) (1st Dec 1979 to 19th May, 1980).

##### *Madhya Pradesh*

S/O B B Singh (NCCJ/5780) (20th July, 1979 to 19th May, 1980).

S/O B P Baghele (NCCJ/5956) (16th Feb 1980 to 19th May, 1980).

##### *Maharashtra*

F/O S P Thannirwar (NCCJ/81091) (16th Oct 1979 to 19th May, 1980).

##### *Punjab*

S/O Sewa Singh (NCCJ/8554) (25th July, 1979 to 19th May, 1980).

##### *Uttar Pradesh*

S/O S N Dewedi (NCCJ/13347) (1st May, 1979 to 19th May, 1980).

T/O S P S Anand (NCCJ/13604) (18th Dec 1979 to 19th May, 1980).

##### *Junior Division (Naval Wing)*

##### *Gujarat*

S/O R B Patel (NCCJN/35424) (1st Apr 1979 to 19th May, 1980).

F/O R K Patel (NCCJN/35317) (1st Apr 1980 to 19th May, 1980).

##### *Punjab*

S/O R S Mehta (NCCJN/8125) (1st Feb 1979 to 19th May, 1980).

No. 2440, dated 27th October 1980.—The President is pleased to discharge the following officers from the National Cadet Corps wef the dates shown against their names :—

##### *Junior Division (Army Wing)*

##### *Andhra Pradesh*

C/O T B James (NCCJ/9315), 31st Dec 1977.

##### *Maharashtra*

F/O D D Gujar (NCCJ/81436), 16th Mar 1979.

C/O A Q Sani (NCCJ/81029), 1st Apr 1980.

S/O N B Digraikar (NCCJ/81546), 1st Apr 1980.

F/O T B Khadapkar (NCCJ/81584), 27th Aug 1980.

##### *Punjab*

F/O Dilbagh Rai (NCCJ/8098), 31st Oct 1979.

##### *Tamil Nadu*

C/O S Mohan (NCCJ/51113), 6th June 1980.

F/O K R Subramanian (NCCJ/51552), 6th July 1980.

##### *Uttar Pradesh*

C/O J P Chola (NCCJ/12229), 28th July 1980.

F/O N S Rathore (NCCJ/13181), 27th Aug 1980.

##### *West Bengal*

F/O P C Chandra (NCCJ/14612), 1st Aug 1979.

F/O B N Chatterjee (NCCJ/14628), 27th Aug 1979.

##### *Junior Division (Naval Wing)*

##### *Punjab*

F/O Gurdev Singh (NCCJN/7747), 3rd Dec 1979.

##### *Junior Division (Air Wing)*

##### *Delhi*

C/O R S Bhargava (NCCJA/6075), 22nd Aug 1979.

C/O R K Mathur (NCCJA/6392) and S/O B S Rattan (NCCJA/7837), 27th Aug 1979.

##### *Karnataka*

S/O A K Venkataramanappa (NCCJA/23152), 27th Aug 1979.

S/O K Imam (NCCJA/23402), 3rd Feb 1980.

V K MURTHY, Director of Personnel.

#### (DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE WELLINGTON)

No. 2441, dated 5th November 1980.—The President is pleased to make the following appointment from the date shown against his name :—

Shri Sham Sundar Narang to be pmt CGO (Accounts) Group A—12th Oct 1978.

(*RASHTRIYA INDIAN MILITARY COLLEGE,  
DEHRA DUN*)

No. 2442, dated 1st November 1980.—The President is pleased to appoint Shri C A Joseph, as tempy Master at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun, on probn for a period of two years wef 8th Sep 1980 (F/N).

U K MISHRA, Under Secy.

No. 2443, dated 29th October 1980.—The President is pleased to terminate the following appointment :—

*SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES*

Smt Medha Patwardhan relinquished the charge of Lecturer (ad hoc) in German wef 1st Oct 1980 (F/N).

D R SONI, Asstt CAO.

*DIRECTORATE GENERAL OF INSPECTION*

No. 2444, dated 31st October 1980.—On attaining the age of 58 years on 8th Oct 1980, Shri YUDHISTER, pt ACSO, offg CSO, DGI Orgn, retired from service on 31st Oct 1980 (AN) and was transferred to pension establishment from 1st Nov 1980.

B P JOSHI, Asstt CAO.

No. 2445, dated 30th October 1980.—The President is pleased to make the following appointment :—

*ARMY HEADQUARTERS  
(G S BRANCH)*

Shri Vas Dev Soni, pt Asstt, to be offg Asstt CSO in the AFHQ Civil Service wef 3rd Oct 1980 until further orders.

*(AG'S BRANCH)*

No. 2446, dated 27th October 1980.—The President is pleased to promote Shri Pratap Singh, pmt ACSO as offg Civilian Staff Officer in the AFHQ Civil Service wef 8th Oct 1980 (AN) until further orders vice Shri D M Jain, CSO retired.

No. 2447, dated 1st November 1980.—The President is pleased to make the following promotions :—

*ARMY HEADQUARTERS  
(E-IN-C'S BRANCH)*

Shri S L Jain, pt CSO Naval Hqrs to be SCSO wef 22nd Oct 1980 in the AFHQ Civil Service until further orders vice Shri Gurbux Singh, SCSO retired.

Shri I C Seth, pt ACSO to be offg CSO, on local basis from 31st Mar 1980 to 15th May 1980 vice Shri E Paramasivan, SAO granted leave.

D R SONI,  
Sahayak Mukhya Prashasan Adhikari.

No. 2448, dated 5th November 1980.—On attaining the age of superannuation (viz 58 years) on 5th Oct 1980, Shri K M L Verma, pt Asstt/offg ACSO E-in-C's Branch retired from Govt Service wef 31st Oct 1980 (AN) and transferred to pension Establishment wef 1st Nov 1980.

GURMUKH SINGH,  
Sahayak Mukhya Prashasan Adhikari.

No. 2449, dated 1st November 1980.—On attaining the age of superannuation on 11th Oct 1980 Shri S C Jain, Chief Compilation Officer, JCB, retired from service wef 31st Oct 1980 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Nov 1980 (F/N).

No. 2450, dated 1st November 1980.—On attaining the age of superannuation on 9th Oct 1980 Shri RAGHBIR KISHAN CSO, MG/OS Dte, retired from service wef 31st Oct 1980 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Nov 1980 (F/N).

No. 2451, dated 1st November 1980.—On attaining the age of superannuation on 15th Oct 1980 Shri O P Jain, CSO, MG/OS Dte, retired from service wef 31st Oct 1980 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Nov 1980 (F/N).

No. 2452, dated 1st November 1980.—On attaining the age of superannuation on 3rd Oct 1980 Shri B N Sharma ACSO, MG/OS Dte, retired from service wef 31st Oct 1980 (A/N) and transferred to pension establishment wef 1st Nov 1980 (F/N).

R V K CHARI,  
Sahayak Mukhya Prashasan Adhikari.

No. 2453, dated 28th October 1980.—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76, as amended.

*REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
To be Capt (on probn)*

Sunanda Majumdar, MB, BS, (MR-03730W), AMC, 11th Mar 1977, with seniority for pay and promotion from 11th Sep 1976. (This includes 6 months antedate for HA which will not count for gratuity).

(Min of Def Notn No. 1100 dated 24th Apr 1978 published in the G of I dated 3rd June 1978 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

No. 2454, dated 27th September 1980.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended by AI 14/79.

*REGULAR ARMY  
SHORT SERVICE COMMISSION  
To be Capt (on probn)*

(Mrs) SHAKUNTALA U LAVASA, MB, BS, MD (Paed) (MS-10493H), AMC, 8th May 1978 with seniority for pay and promotion from 8th May 1976 (includes 2 years antedate for Post Graduate qualification MD (Paed) which will not count for gratuity).

(M of D Notn No. 162, dated 30th Nov 1979 published on 19th Jan 1980 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled.)

No. 2455, dated 1st October 1980.—The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78, as amended vide AI 14/79.

*REGULAR ARMY  
SHORT SERVICE COMMISSION  
To be quasi-sub Major (on probn)*

(Mrs) AHILYA ARORA, MB, BS (MS-10644N), AMC, 27th May 1980 (with seniority from 16th Feb 1979 for purposes of pay and allowances).

*To be Capt (on probn)*

ASHOK GOPINATH, MB, BS (MS-10649M) AMC, 05th June 1980.

CHANDRA SEKHAR PANDA, MB, BS (MS-10650F), AMC, 09th June 1980.

SHARAT JOHRI, MB, BS (MS-10648K), AMC, 13th May 1980.

*To be Lt (Fg Offr) (on probn)*

(Miss) GITA NARASIMHAN, MB, BS (MS-10646Y) (16017), AMC, 03rd Mar 1980.

No. 2456, dated 30th October 1980.—The President is pleased to make the following appointment under Min of Def letter No. 20618/DGAFMS/MNS/5545/D(Med) dated 25th Sep 1969 and AI 61/77 :—

**REGULAR ARMY**  
*Military Nursing Service*  
(To be Lieut)

Miss OM ANNAMMA (NR-16329)—31st Dec 1977.

Miss Sumitra CHAKRABORTI (NR-16341)—31st Dec 1977.

Miss D UTHAYA KUMARI (NR-16343)—31st Dec 1977.

Miss TP THRESIAMMA (NR-16346)—31st Dec 1977.

Miss Louise DAHAL (NR-16354)—31st Dec 1977.

Miss KA THRESIAKUTTY (NR-16367)—31st Dec 1977.

Miss B SAROJA (NR-16386)—31st Dec 1977.

Miss V JOTHI (NR-16397)—31st Dec 1977.

Miss MV KUNJOONJAMMA (NR-16431)—31st Dec 1977.

Miss J Lalitha MARY (NR-16433)—31st Dec 1977.

T G SAMTANI, Under Secy.

No. 2457, dated 1st November 1980.—The President is pleased to make the following appointment :—

**TRRITORIAL ARMY**  
(Territorial Commission)  
To be 2/Lt (on probn)

SHAKEEL AHMED, TA-41621, Engrs, 17th Apr 1979.

M L KAPOOR, Under Secy.

No. 2458, dated 30th October 1980.—The President is pleased to make the following appointments :—

**REGULAR ARMY**  
*Special List*  
*The Mahar Regiment*

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Liladhar Pandey (JC-98743W), 09th Oct 1979.

*The Raj Rif*

To be Naib Subedar (Religious Teacher)

Purander Jha (JC-98744Y), 27th Dec 1979.

N KRISHNAN, Under Secy.

**REGULAR ARMY**  
(AOC)

No. 2459, dated 5th November 1980.—The President is pleased to appoint the following tempy Office Supdts Gde I (pmt Office Supdt Gde II) as offg OO Civ (Admn) on ad hoc basis from the dates shown against their names :—

- (a) Shri Veeraswamy Madurai Gopal—18th Jul 1980 (FN).
- (b) Shri Kothandapani Mohanan—19th July 1980 (FN).
- (c) Shri C V Jayaraman—11th Sep 1980 (FN).
- (d) Shri Raj Pall Vig—14th Aug 1980 (FN).
- (e) Shri Som Krishan—29th Aug 1980 (FN).
- (f) Shri P T Jagannathachari—18th Jul 1980 (FN).
- (g) Shri Joseph Pereira—22nd Jul 1980 (FN).
- (h) Shri Venktesh Sadashiv Kulkarni—24th Jul 1980 (FN).
- (j) Shri Shiv Dayal Mehta—28th Aug 1980 (FN).

- (k) Shri Devinder Singh—18th Jul 1980 (FN).
- (l) Shri Jugal Kishore—17th Jul 1980 (FN).
- (m) Shri Satpal Bhalla—18th Jul 1980 (FN).
- (n) Shri Chandar Bhan Pathak—09th Sep 1980 (FN).
- (o) Shri K Purushotham—21st Jul 1980 (FN).
- (p) Shri Anant Shankar Godbole—25th Jul 1980 (FN).
- (q) Shri Bhola Nath Beri—29th Aug 1980 (FN).
- (r) Shri Harbans Singh—25th Jul 1980 (FN).
- (s) Shri Arjun Dev Malhoura—19th Jul 1980 (FN).
- (t) Shri Kanchedi Lal—22nd Jul 1980 (FN).
- (u) Shri O S Narasimhan—04th Sep 1980.
- (v) Shri Bhim Sain Gupta—21st Jul 1980 (FN).

No. 2460, dated 5th Novmeber 1980.—The Prseident is pleased to appoint the following Senior Store Supdts as Offg OO Civ (Stores) on ad hoc basis wef the dates shown against their names :—

- (1) Shri M Moses—10th Sep 1980 (FN).
- (2) Shri Somnath Jatashankar Bhatt—10th Jul 1980 (FN).
- (3) Shri Ramaniklal Vallabhai Thaker—08th Jul 1980 (FN).
- (4) Shri Santiago lyndukaya Francis—10th Jul 1980 (FN).
- (5) Shri Nalini Kanta Mitra—08th Jul 1980 (FN).
- (6) Shri Nand Lal—21st Jul 1980 (FN).
- (7) Shri Talatam Ramaswamy—10th Jul 1980 (FN).
- (8) Shri Ishwar Lal—16th Jul 1980 (FN).
- (9) Shri Charly Stanislaus Fernandez—08th Jul 1980 (FN).
- (10) Shri Harbans Lal Anand—30th Sep 1980 (FN).
- (11) Shri K Ranganathan—04th Jul 1980 (FN).
- (12) Shri Chinnasamy Krishnavelu—10th Jul 1980 (FN).
- (13) Shri George Edward Lawrence—08th Jul 1980 (FN).
- (14) Shri Krishan Baldev Ajamani—03rd Jul 1980 (FN).
- (15) Shri M S Chadda—05th Jul 1980 (FN).

**CORPS OF EME**

No. 2461, dated 4th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri Akshaibar Singh to be tempy Workshop Officer Group 'A' in the Corps of EME wef 07th Jul 1980 (FN) until further orders.

He will be on probn for a period of two years.

No. 2462, dated 5th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri D N Jhaveri, Foreman to be offg Workshop Officer Group 'B' in the Corps fo EME wef 11th Apr 1980 (FN) until further ordres.

He will be on probn for a period of two years.

No. 2463, dated 8th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri N V Parameswaran, Senior Workshop Officer to be offg Workshop Supdt in the Corps of EME wef 23rd Sep 1980 (FN) until further orders.

He will be on probn for a period of two years.

No. 2464, dated 5th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri Lachhman Dass, Office Supdt Grade I to be offg EME Officer (Civ) in the Corps of EME wef 01st Aug 1980 (FN) until further orders.

He will be on probn for a period of two years

No. 2465, dated 5th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri P V R Jagadish, pmt Lectuer/offg Assistant Professor as pmt Assistant Professor wef 5th May 1980 in the Corps of EME.

**MILITARY ENGINEER SERVICES**

No. 2466, dated 5th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri B S MANDALIKA, pmt EE, tempy SE to carry out the full duties of Director of Cantonment Planning in addition to his own in E-in-C's Branch for the period from 15th Dec 1979 to 26th Feb 1980.

U K MISHRA, Under Secy.

No. 2467, dated 17th September, 1980.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers consequent on the completion of the probationary period:—

**REGULAR ARMY****PERMANENT COMMISSION**

Lt T. Kishan (NTR-16368-M), AMC (Non-Tech), 9th Apr 1978.

2/Lt M C DHAUNDHIYAL, (NTR-16366-F), AMC (Non-Tech), 9th Apr 1978.

2/Lt S S KAJINTURA, (NTR-16367-K), AMC (Non-Tech), 9th Apr 1978.

**SHORT SERVICE COMMISSION**

Capt SUVEER SHARMA, (XY-09825-R), RRC, 02nd Jan 1977

Capt S K GUPTA (MS-10062-N), AMC, 15th Oct 1977.

2/Lt (Now Lt) S K GHOSAL, (NTS-17347-H), AMC (Non-Tech), 9th April 1978.

Lt V P SINGH, (NTS-17354-Y), AMC (Non-Tech), 17th May 1979.

2/Lt J GEORGE (NTS-17355-F), AMC (Non-Tech), 17th May 1979.

2/Lt B SAIBABA, (NTS-17357-M), AMC (Non-Tech), 17th May 1979.

T. G. SAMTANI, Under Secy.

No. 2468, dated 29th September 1980.—The President is pleased to make the following promotion:—

**REGULAR ARMY****PERMANENT COMMISSION****Lt Col to be Col**

R K KOCHHAR (MR-576) AMC/PC—30 Jan 1979 (with notional seniority without effect on pay and pension from 31 May 1976)

T. K. BOSE, Dy. Secy.

No. 2469, dated 30th October, 1980.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY****PERMANENT COMMISSION****Lt Col to be Col**

T N SINGH (MR-1157) AMC/PC—24 Mar 1979 (with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Apr 1977).

A K Datta (MR-03095 W), AMC, 24th June 1980.

V Singh (MR-03069-P), AMC, 24th June 1980.

V K Gupta, (MR-03082 Y), AMC, 24th June 1980.

S S Rajauria (MR-02107 N), AMC, 4th Aug 1980.

S R Bhowal, (MR-01980 Y), AMC, 9th Aug 1980.

P. Sil (MR-02328 A), AMC, 10th Aug 1980.

Major (Surg Lt Cdr) to be Lt Col (Surg Cdr)

H P Mukherjee (MR-02403 Y) (75091 K), AMC, 10th Aug 1980.

**Capt to be Major**

P K Dandona (MR-03218-X), AMC, 7th Mar 1979.

R K Malik (MR-03238-L), AMC, 1st Dec 1979.

K Singh, (MR-03298-A), AMC, 1st June 1980

M S BFG, (NTR-16109 K), AMC (Non-Tech), 20th June 1980.

A. VIJAYAN, (NTR-16264-L), AMC, (Non-Tech), 20th June 1980.

G. SAMSON, (NTR-16266-W), AMC (Non-Tech), 20th June 1980.

**2/Lt to be Lt**

SOHAN LAL, (NTR-16362-L), AMC (Non-Tech), 9th April 1980.

M S NARAYANAN, (NTR-16363-N), AMC (Non-Tech), 9th Apr 1980.

**SHORT SERVICE COMMISSION****Capt (Flt Lt) to be Quasi-Subst Major/Sqn Ltr**

(Mrs) N. SAGHEER (MS-09522-X) (14013), AMC, 1st June 1980.

**Capt to be Quasi-subst Major**

R S SANGHA, (MS-09326-X), AMC, 19th July 1980.

**Capt to be Quasi-substn Major (On Probn)**

U N MOHANTA (MS-10503-Y), AMC, 3rd July 1980.

**Lt (Fg Offr) to be Capt (Flt Lt) (on probn)**

S KUDESIA (MS-10551-Y) (15675), AMC, 8th Dec 1979.

**Lt (Surg Sub Lt) to be Capt (Surg Lt) (on probn)**

(Miss) S. DEODHAR (MS-10548-Y) (75247-R), AMC, 8th Dec 1979.

**Lt to be Capt (on probn)**

R. KAPOOR (MS-10591-A), AMC, 1st June 1980.

B. GANGULY (MS-10490-M), AMC, 8th June 1979.

**2/Lt to be Lt (on probn)**

M C Joshi (NTS-17351L), AMC (Non-Tech), 9th Apr 1980.

T G SAMTANI, Under Secy.

No. 2470, dated 1st November 1980.—The President is pleased to make the following promotions:—

**TERRITORIAL ARMY****(Territorial Commission)****Lieut to be Capt**

P K BAHAL (TA-41394), Infantry, 1st June 1976.

H S JAMWAL (TA-41194), Infantry, 6th June 1978.

M L KAPOOR, Under Secy.

No. 2471, dated 4th November 1980.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY****Defence Security Corps****To be Sub**

Nb Sub Manohar Singh (JC-74498), 1st Jul 1980.

Nb Sub Gopal Sawant (JC-78077), 1st Aug 1980.

**To be Nb Sub**

Hav Kumaran KP (No. 11034630 now JC-98753A), 9th Aug 1979."

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26th June 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Hans Raj (No. 2948703 now JC-98754H), 3rd Jan 1980.\*\*

Hav Inderdeo Singh (No. 6810358 now JC-98755I), 4th Jan 1980.\*\*

Hav Bhagat Singh Rawat (No. 4039757 now JC-98756N), 4th Jan 1980.\*\*

Hav Suresh Datt (No. 10402284 now JC-98757W), 5th Jan 1980.\*\*

Hav Umed Singh (No. 3145646 now JC-98758Y), 5th Jan 1980.\*\*

Hav Piara Singh (No. 1560990 now JC-98759F), 5th Jan 1980.\*\*

Hav Balkrishna Bhatt (No. 1409017 now JC-98760W), 7th Jan 1980.\*\*

BHM Natha Ram (No. 2844460 now JC-98761Y), 8th Jan 1980.\*\*

Hav P Gopalan (No. 11033600 now JC-98762F), 8th Jan 1980.\*\*

Hav K Sowariappan (No. 10162305 now JC-98763K), 9th Jan 1980.\*\*

COMH Ram Singh (No. 11125918 now JC-98764M), 9th Jan 1980.\*\*

Hav Lakshmi Chand (No. 1143994 now JC-98765P), 9th Jan 1980.\*\*

Hav Ram Sarup (No. 8805545 now JC-98766X), 10th Jan 1980.\*\*

Hav Chinnappan (No. 1301330 now JC-98767A), 10th Jan 1980.\*\*

Hav Labh Singh (No. 8823447 now JC-98768H), 10th Jan 1980.\*\*

Hav Santoba Gote (No. 6764209 now JC-98769L), 11th Jan 1980.\*\*

CHM Subh Ram (No. 6887827 now JC-98770A), 11th Jan 1980.\*\*

Hav Amar Singh (No. 4145518 now JC-98771H), 11th Jan 1980.\*\*

Hav Umed Singh (No. 13655461 now JC-98772L), 11th Jan 1980.\*\*

Hav Kalappa Chinchani (No. 10116813 now JC-98773N), 14th Jan 1980.\*\*

Hav Mool Chand (No. 11857932 now JC-98774W), 14th Jan 1980.\*\*

Hav Rajendra Bahadur Singh (No. 2950767 now JC-98775Y), 15th Jan 1980.\*\*

Hav Matu Ram (No. 2648109 now JC-98776F), 17th Jan 1980.\*\*

COMH Prem Pal Singh (No. 2948877 now JC-98777K), 18th Jan 1980.\*\*

Hav Hira Singh (No. 2637971 now JC-98778M), 18th Jan 1980.\*\*

Hav Rishipal Singh (No. 6887415 now JC-98779P), 18th Jan 1980.\*\*

Hav Narain Singh Rawat (No. 10179844 now JC-98780K), 24th Jan 1980.\*\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18th Dec 1979 without effect on pay and allowances).

#### *Infantry*

##### *The Assam Regiment*

##### *To be Nb Sub*

Hav Rajendra Chandra Das (No. 4338663M now JC-98825Y), 04th Nov 1979.

#### *The Bihar Regt*

##### *To be Nb Sub*

CHM Radha Krishna Sah (No. 4238094P now JC-98823N), 20th July 1979.

Hav Chhatu Prasad Singh (No. 4240909K now JC-98824W), 14th Dec 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Oct 1979 without effect on pay and allowances).

#### *The Dogra Regiment*

##### *To be Sub Maj*

Sub Amin Chand (JC-44360W), 1st July 1980.

##### *To be Sub*

Nb Sub Mangat Ram (JC-77469W), 1st July 1980.

Nb Sub Balak Ram (JC-72370W), 1st July 1980.

Nb Sub Kehar Singh (JC-80812Y), 1st July 1980.

Nb Sub Shankar Das (JC-78573W), 12th June 1980.

Nb Sub Safri Ram (JC-81567N), 1st July 1980.

##### *To be Nb Sub*

Hav Ranjit Singh (No. 3955841F now JC-98831M), 1st Nov 1979.

Hav Mehar Chand (No. 3948588H now JC-98832P), 1st Nov 1979.

#### *The Garhwal Rifles*

##### *To be Nb Sub*

Hav Chandar Singh (No. 4040288M now JC-98827K), 11th Aug 1979.

Hav Umrao Singh Kathait (No. 4038062H now JC-98828M), 1st Nov 1979.

Hav Yaswant Singh Negi (No. 4041203X now JC-98829P), 1st Dec 1979.

##### *To be Nb Sub (Clerk)*

Hav (Clerk) Netra Singh (No. 4038886L now JC-98830K), 7th Dec 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24th Nov 1979 without effect on pay and allowances).

#### *3 GR*

##### *To be Nb Sub (Cik)*

Hav (Cik) Bishan Singh Thapa (No. 5234199X now JC-98820A), 1st Jan 1980.

#### *5 GR*

##### *To be Sub*

Nb Sub Chandra Bahadur Gurung (JC-76934L), 1st July 1980.

##### *To be Nb Sub*

Hav Til Bahadur Thapa (No. 5437572 Now JC 98815 P), 2nd Aug 1979.

Hav Dal Bahadur Thapa (No. 5438023 N Now JC 98816 X), 3rd Aug 1979.

Hav Gan Bahadur Pun (No. 5437654 K Now JC 98817 A), 1st Oct 1979.

Hav Naresh Bahadur Pun (No. 5438361 L Now JC 98818 H), 1st Nov 1979.

Hav Chhatraman Gurung (No. 5436775 Y Now JC 98819 L), 1st Dec 1979.

#### *8 GR*

##### *To be Sub*

Nb Sub Budhi Bahadur Thappa (JC-56949M), 1st May 1980.

Nb Sub Sher Bahadur Gurung (JC-74934 M), 27th May 1980.

## 8 G R

*To be Nb Sub*

Hav Karan Bahadur (No. 5739766 F Now JC 98810 W), 1st Nov 1979.

Hav Krishna Kumar Thapa (No. 5740499 X Now JC 98811 Y), 1st Nov. 1979.

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5741656 L Now JC 98812 F), 1st Nov 1979.

Hav Khun Bahadur Pun (No. 5739495 P Now JC 98813 K), 1st Nov 1979.

Hav Karna Bahadur Gurung (No. 5740978 Y Now JC 98814 M) 1st Dec 1979.

## 9 GR

*To be Nb Sub (Bandmaster)*

Hav (Bandsman) Ram Singh Darji (No. 5834628 L now JC 98809 F) 14 Sep 1979.\*

(\*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Bandmaster) wef 5 Aug 1979 without effect on pay and allowances)

## 11 GR

*To be Nb Sub*

Hav Mahendra Singh Thapa (No. 9406114 H now JC 98802 X) 28th Aug 1979.

Hav Shyam Prasad Rai (No. 5440924 Y now JC 98803 A), 1st Nov 1979.

Hav Man Mohan Limbu (No. 9405503 W now JC 98804 H), 1st Dec 1979.

Hav Nanda Bahadur Limbu (No. 9408148 P now JC-98805 L), 1st Dec 1979.

Hav Jai Bahadur Rai (No. 9404412A now JC 98806 N), 1st Dec 1979@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Oct 1978 without effect on pay and allowances).

Hav Birendra Singh Chhetri, (No. 9406595 A now JC 9880 W), 8th July 1979.

Hav Mani Raj Limbu (No. 9405076 L now JC 98808 Y), 1st Nov 1979.

*The Jat Regt**To be Sub Maj Clk*

Sub Clk Jage Ram (JC-53573 L), 1st Apr 1980.

*To be Sub*

Nb Sub Rakshpal Singh (JC-72515 W), 1st Apr 1980.

Nb Sub Rekha Ram (JC-75118 H), 1st May 1980.

Nb Sub Gharsi Ram (JC-79453 K), 1st May 1980.

Nb Sub Atraj Singh, (JC-72513 L), 1st May 1980.

Nb Sub Bujan Ram (JC-77476 M), 1st May 1980.

Nb Sub Ram Singh (JC-66568 Y), 1st June 1980.

Nb Sub Makund Singh (JC-80781 K), 1st June 1980.

Nb Sub Sultan Singh (JC-76905 W), 1st June 1980.

Nb Sub Bhim Singh (JC-76893 M), 1st June 1980.

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-76895 X), 1st June 1980.

Nb Sub Ganesha Ram (JC-76896 A), 1st June 1980.

*To be Nb Sub*

Hav Tansukh Rai (No. 3146432 L now JC 98842 Y), 18th Dec 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02nd July 1979 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Lal (No. 3146524 X now JC 98843 F), 29th Oct 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Phal (No. 3143934 H now JC 98844 K), 1st Nov 1979.

Hav Lekh Ram (No. 3143223 H now JC 98845 M), 14th Nov 1979.

Hav Jagdeo Singh (No. 3144230 L now JC 98846 P), 30th Nov. 1979.

Hav Suba Singh (No. 3145852 Y now JC 98847 X), 7th Dec 1979.

*To be Nb Sub Clk*

Hav Clk Jagdish Parshad (No. 3144063 A now JC 98848 A), 1st Oct 1979.

## JAK RIF

*To be Nb Sub*

Hav Buti Singh (13717779 X Now-JC-98795 M), 12th Nov 1979\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16th May 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Bishan Singh (13719308 P now JC-98796 P), 20th Nov 1979.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st July 1979 with effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh (13720917 L Now JC-98797 X), 3rd October 1979 £

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 6th July 1979 with effect on pay and allowances).

Hav Parkash Chand (13718055 Y Now JC-98798 A), 17th July 1979.

Hav Jaswant Singh (13727244 K Now JC-98799 H) 19th Act 1979.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 4th Aug 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Suraj Singh (31718711 P Now JC-98800 M), 13th Nov 1979.

*To be Nb Sub Clk*

Hav Clk Rajesh Verma (13721021 W Now JC-98801 P), 1st Nov 1979.

*The Kumaon Regt**To be Sub*

Nb Sub Nar Bahadur Chand (JC 78704 W), 1st Dec 1979.

Nb Sub Anand Singh (JC 78868 M), 1st Jan 1980.

Nb Sub Pan Singh (JC 68262 P), 1st Mar 1980.

Nb Sub Hari Lal (JC 72485 K), 1st July 1980.

*To be Nb Sub*

Hav Dalip Singh (No. 4146338 X now JC 98826 F), 24th Nov 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 3rd Act 1979 without effect on pay and allowances).

*The Madras Regt**To be Sub*

Nb Sub Henry Fernandez (JC 62553 Y), 1st May 1980.

Nb Sub George KA (JC 64831 A), 9th May 1980.

Nb Sub Bhaskaran K (JC 65321 L), 1st June 1980.

*To be Sub (Clk)*

Nb Sub (Clk) CV Alexander (JC 64057 W) 1st June 1980.

*To be Nb Sub*

Hav K K Ramakrishna Pillai (No 2551668 F now JC 98871 N), 31st Oct 1979.

Hav D Maria Russel (No. 2552425 H now JC 98872 W), 5th Nov 1979.

BHM Vikraman Nair (No. 2558300F now JC 98873 Y), 9th Dec 1979.



Hav Krishnan Kutry Raju (No. 2557071 P now JC 98874 F), 27th Dec 1979.

BQMh Kesavan (No. 2557051 F now JC 98875 K), 27th Dec 1979.

COMH Gopala Pillai Manikantan Nair (No. 2557949 N now JC 98876 M), 27th Dec 1979.

CHM N Sandappan (No. 2547996 X now JC 98877 P), 2nd Jan 1980.

CHM Krishnan Nair (No. 2551750 W now JC 98878 X), 2nd Jan 1980.

Hav M Natarajan (No. 2558318 X now JC 98879 A), 12th Dec 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Oct 1979 without effect on pay and allowances).

Hav E Raman Kutty (No. 2550528 H now JC 98880 P), 30th Oct 1979.

Hav Dhanapal Reddy Munuswamy, (No. 2550302 X now JC 98881 X), 30th Oct 1979.

Hav PN Gopalan (No. 2552854 K now JC 98882 A), 1st Dec 1979.

COMH K Raju (No 2546883 H now JC 98883 H) 1st Dec 1979.

Hav Kuruppanpalath Raman Ravi (No. 2559715 H now JC 98884 L), 1st Dec 1979.

COMH Kombi Velavudhan (No. 2556804 W now JC 98885 N), 9th Dec 1979.

Hav Kakkasseril Govindan Sreedharan (No. 2554431 P now JC 98886 W), 12th Dec 1979.

#### *The Mahar Regiment*

##### *To be Nb Sub (Clerk)*

Hav Ck Prabhu Nath Goswami (No. 9203999 N now JC-98821 H) 08th Sep 1979.

Hav Ck Amar Nath Shukla (No. 9204060 K now JC-98822 L) 06th Oct 1979.

#### *The Maratha LI*

##### *To be Nb Sub*

P A Hav Sadashiv Pawar (No. 2756715 F now JC-98856 Y), 1st Dec 1979.

P A Hav Sambhaji Visurkar (No. 2758102 A now JC-98857 F), 20th Dec 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Dec 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Atmaram Chalke (No. 2751098 A now JC-98858 K), 29th Dec 1979.

#### *The Mechanised Infantry Regiment*

##### *To be Nb Sub*

Hav Padam Singh (No. 2846836 K Now JC 98745 F), 24th Apr 1979.

Hav Birendra Kumar Singh (No 2844992 P Now JC 98746 K), 22nd Jun 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Apr 79 without effect on pay and allowances).

Hav C Antony Danabal (No. 2547862 Y Now JC 98747 M), 24th Apr 1979.

Hav Govindan Tavamani (No. 2549583M now JC-98748 P) 24th Apr 1979.

Hav Ganpat Singh (No. 3947957 H Now JC 98749 X), 24th Apr 1979.

Hav Swami Ram (No. 3947702 H Now JC 98750 M), 24th Jun 1979.  
344GI/80

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 24th Apr 1979 without effect on pay and allowances).

COMH Mangal Singh (No. 295722 W Now JC 98751 P), 4th Oct 1979.

Hav Swindar Singh (No. 3343846 W Now JC 98752 X), 13th Nov 1979.

#### *The Punjab Regiment* *To be Sub*

Nb Sub Niranjana Singh (JC-76205H), 01st Apr 1980.

Nb Sub Paras Ram (JC-74857 H), 01st June 1980.

Nb Sub Sewa Singh (JC-67512Y), 01st July 1980.

Hav Orn Parkash Bharmoria (No. 2446307 K now JC-98700 F), 15th Aug 1979.

Hav Darbara Singh (No. 2446041 H now JC 98701 K), 01st Oct 1979.

Hav Mohinder Singh (No. 2445629 X Now JC-98702 M), 02nd Oct 1979.

Hav Prithvi Chand (No. 2442699 L now JC 98703 P), 01st Nov 1979.

Hav Mubhtiar Singh (No. 2444346 K now JC 98704 X), 01st Nov 1979.

Hav Dalbir Singh (No. 2443614 W now JC 98705A) 03rd Nov 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Mohinder Singh Sahota (No. 2442985 M now JC 98706 H), 24th Nov 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 79 without effect on pay and allowances).

Hav Harbhajan Singh (No. 2443636 P now JC 98707 L) 01st Dec 1979.

Hav Kchar Singh (No. 2444646 L now JC 98708 N), 01st Dec 1979.

Hav Ajit Singh (No. 2442445 N now JC 98716 M), 12th Oct 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08th Aug 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Ajit Chand Katoch (No. 2444812 N now JC 98717 P), 20th Sep 1979.

Hav Nazar Singh (No. 2446221 L now JC 98718 X), 30th Sep 1979.

Hav Dhani Ram (No. 2444044 X now JC 98719 A), 01st Nov 1979.

Hav Damodar Dass (No. 2446944 A now JC 98720 P), 01st Nov 1979.

Hav Sardari Lal (No. 2441493 F now JC 98721 X), 01st Dec 1979.

Hav Talsi Ram (No. 2445071 N now JC 98722 A), 01st Dec 1979.

Hav Sawaran Singh (No. 2444562 X now JC 98723 H), 01st Nov 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 1977 without effect on pay and allowances).

Hav Beant Singh (No. 2446248 H now JC 98724 L), 06th June 1979.

Hav Hoshnak Singh (No 2446225 F now JC 98725 N), 10th July 1979.

Hav Tirath Ram (No. 2445806 M now JC 98726 W), 10th July 1979.

Hav Kartar Singh (No. 2442839 M now JC 98727 Y), 21st July 1979.

Hav Jasjit Singh (No. 2443408 M now JC 98728 F), 24th July 1979.

Hav Roshan Lal (No. 2439929 H now JC 98729 K) 15th Aug 1979@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27th July 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Dhian Singh (No. 2442115 P now JC 98730 Y), 12th Sep 1979.

Hav Ajit Singh (No. 2442920 F now JC 98731 F) 20th Sep 1979.

Hav Jasbir Singh Maan (No. 2449150 A now JC 98732 K), 23rd Oct 1979.

Hav Tehal Singh (No. 2443977A now JC98733 M) 01st Nov 1979.

Hav Ajit Singh (No. 2448435 A now JC 98734 P) 01st Nov 1979.

Hav Hoshiar Singh (No. 2444497 H now JC 98735 X), 01st Nov 1979.

Hav Shakti Chand (No. 2445894 N now JC 98736 A), 01st Nov 1979.

Hav Harbans Singh (No. 2443914 X now JC 98737 H), 16th Nov 1979.

Hav Mohinder Singh (No. 2442050 M now JC 98738 L), 19th Nov 1979.

Hav Ajai Singh (No. 2442672 now JC 98709 W) 01st Nov 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th June 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Srm Nath (No. 2447098 K now JC 98710 L), 20th Aug 1979.

Hav Jyoti Parkash Gautam (No. 2443663 Y now JC 98711 N), 01st Dec 1979.

Hav Major Singh (No. 2443739 N now JC 98712 W), 14th Dec 1979.

#### *To be Nb Sub Clk*

Hav Clk Hoshiar Singh (No. 2442745 P now JC 98713 Y), 01st Dec 1979.

Hav Clk Kashmir Singh (No. 2442483 K now JC 98714 01st Dec 1979.

Hav Clk Avtar Singh (No. 2444867 X now JC 98715 K), 31st Dec 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Dec 1979 without effect on pay and allowances).

#### *The Parachute Regiment*

##### *To be Sub Maj*

Sub Ram Chander (JC-42730 M), 1st Aug 1980.

Sub Mohinder Singh (JC-46874 M), 1st Aug 1980.

##### *To be Sub Maj (Clk)*

Sub (Clk) Gurmukh Singh (JC-41078 A), 1st Aug 1980.

##### *To be Sub*

Nb Sub Hari Singh (JC-65121 P), 1st Aug 1980.

Nb Sub Darshan Singh (JC-74853 M), 1st Aug 1980.

##### *To be Sub (Clk)*

Nb Sub (Clk) Mohinder Singh Chohan (JC-65779 P), 1st Aug 1980.

##### *To be Sub*

Nb Sub Ganesha Ram (JC-61909 P), 1st Jul 1980.

Nb Sub Vije Singh (JC-61910 K), 1st Aug 1980.

Nb Sub Daya Nand (JC-67175 P), 1st Aug 1980.

Nb Sub Mahabir Singh (JC-67177 A), 1st Sep 1980.

Nb Sub Rabi Shanker (JC-67178H), 1st Sep 1980.

#### *No be Nb Sub*

GHM Nawab Singh (13601001M now JC-98739 N) 10th Dec 1979\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16th Oct 1979 without effect on pay and allowances).

TOMK Ram Chandra (3144155 M. Now JC-98741 L), 13th Dec 1979.

Hav Chander Singh (4144280M now JC-98742 N), 1st Jan 1980.

#### *To be Nb Sub (Clk)*

Hav (Clk) Rajinder Singh (3348585 X now JC-98740 H), 1st Jan 1980.

#### *The Rajput Regiment*

##### *To be Sub Maj*

Sub Sultan Ram (JC-66042M), 1st July 1980.

##### *To be Subedar*

Nb Sub Harnam Singh (JC-90022X), 1st July 1980.

Nb Sub Bhagmal (JC-56049H), 1st May 1980.

##### *To be Nb Sub*

Hav Mohinder Singh Chouhan (No. 2951239F now JC-98849H), 1st Dec 1979.

Hav Bhim Singh (No. 2950526L now JC-98850X), 8th Dec 1979.

Hav Gouranga Chandra Das (No. 2953369P now JC-98851A), 1st Oct 1979.

Hav Kaushal Kishore Singh (No. 2946326X now JC-98852 H), 5th Dec 1979.

Hav Hari Narain Dubey (No. 2947962X now JC-98853I.), 1st Jan 1980.

Hav Bhim Singh (No. 2948458K now JC-98854N), 1st Jan 1980.

#### *To be Nb Sub (Clk)*

Hav Clk Begraj Sharma (No. 2949057F now JC-98855W), 9th Dec 1979.

#### *The Raj Rif*

##### *To be Sub*

Nb Sub Mohd Hanif (JC-78565X), 1st May 1980.

Nb Sub Shitla Prasad Singh (JC-72541X), 1st Aug 1980.

##### *To be Sub Clk*

Nb Sub Clk Surajbhan Sindhu (JC-61920N), 1st Aug 1980.

#### *The Sikh Regiment*

##### *To be Sub*

Nb Sub Iqbal Singh (JC-80057A), 21st June 1980.

Nb Sub Gurdial Singh (JC-82794A), 1st July 1980.

Nb Sub Arjan Singh (JC-82790K), 1st July 1980.

Nb Sub Shivdev Singh (JC-79211F), 1st June 1980.

Nb Sub Karnail Singh (JC-79852N), 1st June 1980.

Nb Sub Surjit Singh (JC-82054L), 1st June 1980.

Nb Sub Milkha Singh (JC-62716F), 1st July 1980.

Nb Sub Sohan Singh (JC-68448Y), 1st July 1980.

Nb Sub Nachhattar Singh (JC-69032N), 1st July 1980.

Nb Sub Gurmit Singh (JC-76473M), 1st July 1980.

Nb Sub Dharam Singh (JC-76480H), 1st July 1980.

Nb Sub Bachan Singh (JC-78453X), 1st July 1980.

Nb Sub Kartar Singh (JC-82575Y), 1st July 1980.

##### *To be Sub Clk*

Nb Sub Clk Didar Singh (JC-70179W), 1st June 1980.

Nb Sub Clk Sumail Singh (JC-71625Y), 1st July 1980.

*To be Nb Subs*

Hav Harbhajan Singh (No. 3349781K now JC-98839Y), 2nd Dec 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th Sep 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Karnail Singh (No. 3348550F now JC-98840N), 1st Nov 1979.

CHM Charan Singh (No. 3352758F now JC-98841W), 5th Sep 1979.

*To be Nb Sub*

Hav Shamsher Singh (No. 3350864F now JC-98833X), 6th Aug 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd May 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Gurbachan Singh (No. 3353433A now JC-98834A), 28th July 1979.

Hav Jarnail Singh (No. 3349081W now JC-98835H), 24th Aug 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th July 1979 without effect on pay and allowances).

CHM Taram Singh (No. 3347949M now JC-98836L), 16th Nov 1979.

*To be Nb Sub Clks*

Hav Clk Manohar Singh (No. 3350268P now JC-98837N), 1st Sep 1979.

Hav Clk Chand Singh (No. 3350300Y now JC-98838W), 17th Sep 1979.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 15th Sep 1979 without effect on pay and allowances).

**CORPS OF ENGINEERS****MES MILITARISED CADRE***To be Nb Sub*

Hav Ramakrishnan (1330703L now JC-98661N), 08th Jun 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jul 1978 without effect on pay and allowances).

Hav Abraham Thomas (1335887Y now JC-98662W), 18th Jun 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Jun 1979 without effect on pay and allowances).

*To be Nb Sub (Clk)*

Hav Clk Panchdeo Singh (1429045M now JC-98663Y), 12th Sep 1979.\*\*\*

Hav Clk Gadilli Nagamani (1344540N now JC-98664F), 05th Sep 1979.\*\*\*

Hav Clk Sathri Chandrayudu (1345682X now JC-98665K), 30th Jul 1979.\*\*\*

Hav Clk Komolira Ponnappa Kalappa (1345957A now JC-98666M), 09th Jul 1979.\*\*\*

Hav Clk Sagar Yadav (1532999X now JC-98667P), 10th Aug 1979.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31st May 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Balwant Singh (1533405K now JC-98668X), 06th Sep 1979.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08th Jun 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Raghavan Nair G (1533437M now JC-98669A), 17th Sep 1979.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Jun 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Deva Singh (1533247A now JC-98670P), 18th Sep 1979.\*%

Hav Clk Makhan Singh (1443820K now JC-98671X), 14th Sep 1979.\*%

Hav Clk Vidya Ram (1533550F now JC-98672A), 17th Sep 1979.\*%

Hav Clk Satya Prakash (1437282L now JC-98673H), 14th Sep 1979.\*%

Hav Clk Karuppana Ganesan (1344519L now JC-98674L), 07th Sep 1979.\*%

Hav Clk Daulat Ram Rahi (1532347Y now JC-98675N), 13th Sep 1979.\*%

Hav Clk Man Singh (1438228K now JC-98676W), 18th Sep 1979.\*%

Hav Clk Ramaswamy Rajaram Mohan Ray (1342296A now JC-98677Y), 14th Sep 199.\*%

Hav Clk Gurnam Singh (1442773L now JC-98678F), 18th Sep 1979.\*%

Hav Clk Amrik Singh (1442785A now JC-98679K), 17th Sep 1979.\*%

Hav Clk Kewal Singh (1443819P now JC-98680Y), 14th Sep 1979.\*%

Hav Clk Halappa Gowda Shivappa (1345795A now JC-98681F), 12th Sep 1979.\*%

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Aug 1979 without effect on pay and allowances).

*Corps of Military Police**To be Sub Maj*

Sub Sultan Singh (JC-65010X), 1st Aug 1980.

*Corps of Signals**To be Sub Maj (GD)*

Sub Shaik Khaja Mohiddin (JC-60217), 1st Jul 1979.

*To be Sub Maj (OP Ciph)*

Sub Manbar Singh Negi (JC-32120), 1st Oct 1979.

Sub A R Balakrishnan (JC-32122), 29th Nov 1979.

Sub Hari Bansh Dubey (JC-32125), 1st Dec 1979.

Sub Penaju Sarma Bandhakavi (JC-37231), 1st Dec 1979.

Sub Atindra Nath Mitra (JC-37947), 1st Feb 1980.

*Army Educational Corps**To be Nb Sub*

Hav Bhanu Bhattacharya (No. 9502335M now JC-98781M), 19th Nov 1979.\*

Hav Devi Datt Tiwari (No. 9502352M now JC-98782P), 19th Nov 1979.\*

Hav Chandra Kiran Tyagi (No. 9502373H now JC-98793X), 18th Dec 1979.\*

Ham Ramesh Chandra Oli (No. 9502351K now JC-98784A), 20th Dec 1979.\*

Hav Ram Singh (No. 9502364F now JC-98785H), 11th Jan 1980.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Makrand Singh Chauhan (No. 9502383M now JC-98786L), 20th Dec 1979.\*\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Ram Yadav (No. 9502403P now JC-98787N), 2nd Dec 1979.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Nov 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Tummala Cheruvu Girija Kanthudu (No. 9502423H now JC-98788W), 24th Dec 1979.%

Hav Shyam Lal Sharma (No. 9502407L now JC-98789Y), 29th Dec 1979.%

Hav Satya Pal Singh (No. 9502398P now JC-98790N), 29th Dec 1979.%

Hav Kanwar Singh Yadav (No. 9502417P now JC-98791W), 4th Jan 1980.%

Hav Hari Chand (No. 9502428F now JC-98792Y), 14th Jan 1980.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Ponnuru Rajata Giripati Rao (No. 9502454H now JC-98793F), 13th Dec 1979.

#### *To be Nb Sub (Clerk)*

Hav Ck Bhupendra Singh Chand (No. 9501274N now JC-98794K), 1st Dec 1979.

#### *Infantry*

#### *The Grenadiers*

#### *To be Sub Maj Ck*

Sub Ck Lekh Ram (JC-63744A), 01st Aug 1980.

#### *To be Sub Ck*

Nb Sub Ck Sarwan Singh Kashyap (JC-64030Y), 01st Aug 1980.

#### *To be Sub*

Nb Sub Said Ahmed Khan (JC82366F), 01st Nov 1979.

Nb Sub Kapur Singh (JC-82614M), 01st Jan 1980.

Nb Sub Gian Chand (JC-66663L), 01st Mar 1980.

Nb Sub Harbans Singh (JC-79102P), 01st Mar 1980.

Nb Sub Shri Ram (JC-82007N), 01st Mar 1980.

Nb Sub Prithi Chand (JC-85857A), 01st Mar 1980.

Nb Sub Attar Singh (JC-78692M), 01st Apr 1980.

Nb Sub Angat Chand (JC-63952H), 01st May 1980.

Nb Sub Brij Lal, SM (JC-85858L), 08th May 1980.

Nb Sub Ram Karn (JC-80784X), 01st June 1980.

Nb Sub Chain Singh Shekhawat (JC-63946F), 01st June 1980.

Nb Sub Balbir Singh (JC-85806P), 01st July 1980.

Nb Sub Zile Singh (JC-79810F), 01st Aug 1980.

Nb Sub Randhir Singh (JC-79089W), 19th July 1979.

Nb Sub Tarsam Lal (JC-68130F), 12th Nov 1979.

Nb Sub Vakshi (JC-73015L), 01st Jan 1980.

Nb Sub Ghulam Hussain (JC-45119W), 01st Feb 1980.

Nb Sub Chander Singh (JC-77962K), 01st Mar 1980.

Nb Sub Kartar Chand (JC-72124L), 01st Mar 1980.

Nb Sub Harnath (JC-79707W), 01st May 1980.

Nb Sub Nasir Ali Khan (JC-61537P), 01st May 1980.

Nb Sub Parbhu Singh (JC-78171Y), 01st May 1980.

Nb Sub Sawai Singh (JC-62750F), 01st May 1980.

Nb Sub Alam Sher (JC-63925L), 01st May 1980.

Nb Sub Ramesh Bhai Patel (JC-77629L), 01st June 1980.

Nb Sub Balbir Singh (JC-75868F), 01st June 1980.

#### *To be Nb Sub*

Hav Rajjan Singh (No. 2645124L now JC-98859M), 1st Aug 1979.

CQMH Rati Lal (No. 2659007L now JC-98860F), 28th Aug 1979.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1979 without effect on pay and allowances).

CQMH Bhagat Ram (No. 2642450H now JC-98861K), 1st Sep 1979.

BQMH Kamlesh Singh (No. 2653796M now JC 98862M), 1st Sep 1979.

BHM Girdhari Lal Verma (No. 2643312N now JC-98863P), 1st Sep 1979.

Hav Dhian Singh (No. 2645289K now JC-98864X), 1st Sep 1979.

CQMH Jai Lal (No. 2642338W now JC-98865A), 1st Sep 1979.

CHM Madho Singh (No. 2643038F now JC-98866H), 1st Sep 1979.

Hav Jai Hind Singh (No. 2653793Y now JC-98867L), 1st Sep 1979.

BHM Bhal Singh (No. 2642313K now JC-98868N), 6th Oct 1979.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1979 without effect on pay and allowances).

CQMH Puran Singh (No. 2645307K now JC-98869W), 17th Nov 1979.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Sardar Singh (No. 2645583X now JC-98870L), 24th Oct 1979.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1979 without effect on pay and allowances).

#### *Brigade of The Guards*

#### *To be Sub Maj*

Sub A Balakrishnan (JC-36499Y), 1st July 1980.

#### *To be Sub Maj (Clerk)*

Sub Ck Pan Lal Kapla (JC-59351M), 1st Aug 1980.

#### *To be Sub*

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-72556A), 28th Nov 1979.

Nb Sub Jagan Nath (JC-73672P), 29th Jan 1980.

Nb Sub Puran Chand (JC-63057K), 1st Feb 1980.

Nb Sub Dina Nath (JC-72623A), 1st Feb 1980.

Nb Sub Partap Singh (JC-72942M), 1st June 1980.

Nb Sub Balwant Singh (JC-77667F), 1st June 1980.

Nb Sub Rajender Singh (JC-77964P), 11th June 1980.

Nb Sub G Sathya Seelan (JC-72619X), 1st July 1980.

#### *To be Sub (Clerk)*

Nb Sub Ck Ram Singh (JC-71439H), 1st Aug 1980.

#### *To be Nb Sub*

Hav Brahma Singh (3951354H now JC-98694Y), 16th July 1979.

Hav Risal Singh (2443384W now JC-98695F), 10th Nov 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16th July 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Sham Singh (3951984K now JC-98696K), 6th Oct 1979.\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th Aug 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwana Ram (13651689A now JC-98697M), 23rd Aug 1979.

Hav Karam Chand (3952133K now JC-98698P), 7th Oct 1979.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Dalip Singh (3951899I now JC-98699X), 1st Nov 1979.

Hav Ram Datt (13656447F now JC-98682K), 1st July 1979.

Hav Suraj Pal Singh Verma (13652744X now JC-9863M), 3rd Aug 1979.

Hav Bhanu Pratap Singh (13655071K now JC-98684P), 3rd Aug 1979.

Hav Dharam Singh (13653783H now JC-98685X), 8th Oct 1979.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th Sep 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (1030998N now JC-98686A), 16th Sep 1979.

Hav Baldev Singh (13653913A now JC-98687H), 17th Sep 1979.

Hav Shiv Dayal (13653927A now JC-98688L), 29th Oct 1979.\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Mul Chand (13655947M now JC-98689N), 14th Dec 1979.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Harnath Singh (13653372K now JC-98690H), 12th Nov 1979.

Hav Mehar Chand (3953975F now JC-98691L), 1st Dec 1979.

*To be Nb Sub (Clerk)*

Hav Clk Davinder Singh (7638103F now JC-98692N), 2nd Nov 1979.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 1st Oct 1979 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Amrik Singh Parmar (13653613 Y now JC 98693 W), 18th Nov 1979\*\*\*\*.

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 1st Nov 1979 without effect on pay and allowances).

N. KRISHNAN, Under Secy.

No. 2472, dated 30th October, 1980.—The President is pleased to permit the undermentioned officer/s to retire from Army service having attained the age of compulsory retirement :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Col. A. S. Sangwan (IC 8035 F), M.F., 31st Aug 1980 (AN).

P. G. GEORGE, Under Secy.

No. 2473, dated 25th October 1980.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service on attaining the age of superannuation :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Col G C KAPAHTIA (MR 1145 X), AMC/PC, 31st Aug 1980 (AN).

T. K. BOSE, Dy Secy.

No. 2474, dated 20th September 1980.—The President is pleased to release the undermentioned officers from Army Service :—

#### REGULAR ARMY SHORT SERVICE COMMISSION

Major S BATRA, MS-08367-P, A.M.C., 20th July 1980 (FN).

Major (Sqn Ldr) S N PARANJPE, MS-08450-M (12457), A.M.C., 19 Aug 1980 (FN).

Major UC PANIGRAHI, MS-08426-W, A.M.C., 26 Aug 80 (FN).

Major (Mrs) R KOCHAR, MS-09290-K, A.M.C., 30 Aug 80 (FN).

Major A GADKARI, MS-09300-H, A.M.C., 7 Sep 1980 (FN).

Capt K JESUDASON, MS-09543-N, A.M.C., 19 Aug 1980 (FN).

Capt (Flt Lt) S RAMACHANDRAN, MS-09525-L (14006), A.M.C., 28 Aug 1980 (FN).

Capt G SINGH, MS-09531-Y, A.M.C., 28 Aug 80 (FN).

Capt (Fit Lt) A BAWA, MS-09532 (14009), A.M.C., 28 Aug 80.

Capt AK DE, MS-09569-H, A.M.C., 28 Aug 80 (FN).  
Sapt CS RAMACHANDRA RAO, MS-09563-F, A.M.C., 3 Sep 80 (FN).

No. 2475, dated 22nd October 1980.—The President is pleased to terminate the services of the following Nursing Officers on grounds of marriage :—

#### REGULAR ARMY

##### Military Nursing Service (Temporary)

Lt (Miss) S DESAI (NT-15432), 15-8-1978 (AN).

Lt (Miss) A L LONARE (NT-15475), 03-5-1979 (AN).

Lt (Miss) K N SWONRA BAI (NT-15477), 18-7-1979 (AN).

Lt (Miss) C C THANKAMANY (NT-15481), 07-9-1978 (AN).

Lt (Miss) V S GLORA (NT-15486), 11-9-1979 (AN).

Lt (Miss) Q R WATSON (NT-15499), 11-1-1979 (AN).

Lt (Miss) ANNAMMA MATHEW (NT-15508), 16-11-1977 (AN).

Lt (Miss) R M SULOCHANA DEVI (NT-15663), 12-1-1979 (AN).

Lt (Miss) S NIRMALA (NT-15677), 16-10-1979 (AN).

#### CORRIGENDA

No. 2476, dated 17th September 1980(i).—In Min of Def notn. No. 1301 dated 21 May 1980 published in the G of I dated 21st June 1980 under heading "REGULAR ARMY" Sub heading "SHORT SERVICE COMMISSION" against (Mrs) MANJU SHARMA delete the words "with seniority from 23 Sep 1975 for purposes of pay and allowances" and insert the words "with seniority from 23rd Mar 1975 for purposes of pay and allowances".

No. 49321/TA/(M)/1103/TA-4/1541/S/D(Med)

(ii) Min of Def notn. No. 2169, dated 6th September 78 published in the G of I dated 21 Oct 78 is amended as under :—

Against CHIMMAN LAL.

For "TA(M)-1103, AMC(TA), 28th Sep 1976.

Read "TA(M)-1103, AMC(TA), 28th Sep 1976 (Granted ante date seniority as Capt from 8th Mar 1969).

T. G. SAMTANI, Under Secy.

#### (NAVY BRANCH)

No. 2477, dated 2nd November 1980.—The President is pleased to make the following appointments:—

To be (Honorary) Admiral wef 21-10-1980.

(i) Vice Admiral (Retd.) R. D. Katari

(ii) Vice Admiral (Retd.) B. S. Soman.

K. K. MATHUR, Jt. Secy.

No. 2478, dated 17th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri B B Rao, Sr. Foreman, as Offg. Process Engineer from 17 June 80 to 4 Oct 80 vice Shri M Chandrasekharan Process Engineer granted leave.

No. 2479, dated 28th October 1980.—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri Amar Singh, Sr. Foreman (Weapons) promoted as Offg. Civilian Technical Assistant (Weapons) wef 11 Sep 80 (AN).

He will be on probn for two years.

No. 2480, dated 5th November 1980.—The President is pleased to appoint Shri D Veerachary, Senior Foreman of Factory as Offg. Assistant Armament Supply Officer for 143 days from 11 Mar 80 to 31 Jul 80 vice Shri K K Raman, Assistant Armament Supply Officer granted leave.

UMA KANT MISHRA, Under Secy.

No. 2481, dated 11th November 1980.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### INDIAN NAVY

##### PERMANENT COMMISSION

##### ENGINEERING BRANCH

##### (CORPS OF NAVAL CONSTRUCTORS)

SLTs to be Lts

K M Sainath (40608 R), 5-1-78; IC Sharma (40609 T), 27-8-78; R D Dhavalikar (40606 K), 20-6-78; and CSM Raj (40607 N), 20-3-78; vide Ministry of Defence letter No. NC/3066/NHQ/3182/D(N.II) dattd 10-6-77.

K. P. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 2482, dated 22nd October 1980.—The President is pleased to make the following promotions :

#### INDIAN AIR FORCE

##### Flying (Pilot) Branch

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

A Ehalia (11846), S K Sood (11849), A G Katre (11852), V P Singh (11853), DJS Kler (11855), S B S Paul (11857), PH Khokhar (11860), N Sharma (11861), V. Bhatheja (11863); A S Dugal (11864), G S Chaudhry (11870); S R Asirvadam (11871) D K Sawhney (11874); R S Tathgur (11877); V J Singh (11878); S. Ahmed (11883), M Sudarsanan (11888), N M Gupta 11847).

##### Flying (Navigator) Branch

M M S Duggal (11802), A Sen (11803), S C Mehta (11804), K K Rohatgi (11805); M S Nijjar (11806), R P Singh (11807), Sudesh Kumar (11808); S C Wadhwa (11809), R Bhaskar (11810), T. Chaudhuri (11813), I S Chaudhary (11814), B N Renjen (11815), K Singh (11817), R S Dhool (11818), J Xavier (11822), V N Sharma (11825), A Pandya (11880), M George (11832), R Kumar (11833); R S Bragta (11837), M G Chhabria (11839), J S Jathaul (11842), S Srinivasan (11828), J S Chatterjee (11836), H S Ranawat (11844); 29th Dec. 1979.

No. 2483, dated 13th October 1980.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from service on superannuation.

#### INDIAN AIR FORCE

##### Lgs Branch

Wg Cdr M. J. Madok (4179) wef 31-7-80 (A/N).

##### AE (M) BRANCH

##### AE (M) BRANCH

Sqn Ldr C R Dasgupta (6867) w.e.f. 31-7-80 (A/N).

No. 2484, dated 21st October, 1980.—The President is pleased to release the undermentioned officer to retire voluntarily from service wef date indicated against his name.

#### INDIAN AIR FORCE

##### AE/L BRANCH

Wg Cdr H. R. SEETHARAMAN (5163)—29-9-1977 (F.N.)

No. 2485, dated 21st October, 1980.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service wef dates shown against their names.

#### INDIAN AIR FORCE

##### F(P) BRANCH

Sqn Ldr T. S. Tarlok Singh (6350)—09—1—78 (F.N.).

##### ADM BRANCH

Sqn Ldr M. K. RANGANATHAN (5717)—10 Oct 79 (F.N.)

Plt Offr V. R. KHANDEKAR (14745)—29-6-78 (F.N.)

R. K. DHIR, Under Secy.